



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2406]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 25, 2010/अग्रहायण 4, 1932

No. 2406]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 25, 2010/AGRAHAYANA 4, 1932

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

का.आ. 2840(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 914 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, हरियाणा राज्य के यमुना नगर जिले में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर में तारीख 28 मई, 2010 और द ट्रिब्यून में तारीख 23 मई, 2010 को प्रकाशित किया गया था;

और, एक आक्षेप प्राप्त हुआ था और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम, की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में पूर्ण रूप से निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

हरियाणा राज्य के यमुना नगर जिले में विशिष्ट रेल परियोजना पूर्वी समर्पित मालभाड़ा कॉरीडोर हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण								
क्रमांक संख्या	तहसील/तालूक का नाम	गांव का नाम	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (है०)	भूस्वामी/भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगाधरी	(1) कलानीर	25	21	निजी	कृषि	0.0225	अमरो देवी पुत्री कृष्ण लाल पुत्र खजाना वासीदेह
			26	16	निजी	कृषि	0.0025	अमरो देवी पुत्री कृष्ण लाल पुत्र खजाना वासीदेह
				15	निजी	कृषि	0.1467	अमरो देवी पुत्री कृष्ण लाल पुत्र खजाना वासीदेह
			25	20	निजी	कृषि	0.3000	अमरो देवी पुत्री कृष्ण लाल पुत्र खजाना वासीदेह व जगमाल सिंह, धूम सिंह, प्रेम सिंह, ईसम सिंह पुत्रान बीर सिंह हर चार समभाग वासीदेह
			25	11	निजी	कृषि	0.1012	जगमाल सिंह, धूम सिंह, प्रेम सिंह, ईसम सिंह पुत्रान बीर सिंह हर चार समभाग वासीदेह
			26	173	सरकारी	गैर कृषि	0.3345	पंचायत देह
				151	निजी	कृषि	0.1712	लाल सिंह पुत्र खुशी राम पुत्र चहाराम 1/4 भाग श्याम, जयचन्द, साहब सिंह, तेजपाल सिंह, विजय सिंह, पुत्रान लाल सिंह पुत्र खुशी हर पांच समभाग 1/4 भाग मीठा सिंह पुत्र मुतबन्ना शिवदयाल पुत्र बदामा 1/8 भाग नर सिंह, खिलाराम, राजकुमार पुत्रान मीठा सिंह पुत्र मुतबन्ना, शिवदयाल हर तीन समभाग 3/8 भाग वासीदेह
				152	निजी	गैर कृषि	0.0455	ओमप्रकाश पुत्र सोहन लाल पुत्र काशीराम 2/9 भाग, हुसम सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 1/12 भाग अमरीक सिंह पुत्र काशी राम 1/9 भाग शकुन्तला देवी विधवा व सुनीता रानी, अनिता रानी पुत्रियां व नरिन्द्र कुमार पुत्र रविन्द्र कुमार पुत्र गुरदियाल हर चार समभाग 7/36 भाग गुरदेव सिंह पुत्र खुशीर 7/36 भाग राकेश कुमार पुत्र काशी राम 7/36 भाग वासीदेह
				45	सरकारी	गैर कृषि	0.1023	हरियाणा प्रदेश सरकार
		(2) मनडौली		196	सरकारी	सड़क	0.6319	प्रांतीय सरकार
		(3) दुसानी		372	सरकारी	सड़क	0.6709	हरियाणा प्रदेश सरकार
		(4) चंदपुर	18	78	सरकारी	गैर कृषि	0.0067	नगर परिषद यमुना नगर
				138	सरकारी	गैर कृषि	0.0270	नगर परिषद यमुना नगर
				20/2	निजी	कृषि	0.0506	अबूल हसन पुत्र शरफू पुत्र बरखू 1/2 भाग गुलाम मोहम्मद, नियामत अली, लियाकत अली, सतार अली, निसार अली पुत्रान रसीद हसन पुत्र शरफू हर पांच समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			19	8	निजी	गैर कृषि	0.0101	अबूल हसन पुत्र शरफू पुत्र बरखू 1/2 भाग गुलाम मोहम्मद, नियामत अली, लियाकत अली, सतार अली, निसार अली पुत्रान रसीद हसन पुत्र शरफू हर पांच समभाग 1/2 भाग वासीदेह
				16	निजी	गैर कृषि	0.0025	अबूल हसन पुत्र शरफू पुत्र बरखू 1/2 भाग गुलाम मोहम्मद, लियाकत अली, नियामत अली, सतार अली, निसार अली पुत्रान रसीद हसन पुत्र शरफू हर पांच समभाग 24/79 भाग सुभाष चन्द पुत्र कशी राम पुत्र आशाराम 11/158 भाग रोशनलाल पुत्र बाबु राम पुत्र राजाराम 10/79 भाग वासीदेह
				15	निजी	कृषि	0.0866	अबूल हसन पुत्र शरफू पुत्र बरखू 61/138 भाग गुलाम मोहम्मद, लियाकत अली, नियामत अली, सतार अली, निसार अली पुत्रान रसीद हसन पुत्र शरफू हर पांच समभाग 1/2 भाग धर्मपाल पुत्र मामचन्द 4/69 भाग वासीदेह
				14	निजी	कृषि	0.1102	अबूल हसन पुत्र शरफू पुत्र बरखू 1/2 भाग गुलाम मोहम्मद, नियामत अली, लियाकत अली, सतार अली, निसार अली पुत्रान रसीद हसन पुत्र शरफू हर पांच समभाग 7/16 भाग लीला देवी पत्नी बलेश्वर 5/144 भाग जतिन्द्र कौर पत्नी राम कुमार 1/72 भाग सुरेन्द्र कौर पुत्री हरी सिंह 1/72 भाग वासीदेह

क्रमिक संख्या	तहसील/तालुका का नाम	गांव का नाम	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिकृत क्षेत्रफल (हे०)	बूस्सानी/बूस्सामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				13	निजी	गैर कृषि	0.0025	अबूल हसन पुत्र शरफु पुत्र बरखू 73/186 भाग गुलाम मोहम्मद, लियाकत अली, नियामत अली, सतार अली, निहार अली पुत्रान रसीद हसन पुत्र शरफु हर पांच समभाग 1/2 भाग जतिन्द कीर, सुरिन्द कीर, पुनिया, डीरा सिंह हर दो समभाग 1/186 भाग राम बुलारे पुत्र महेश कुमार 1/78 भाग पार्वती पत्नी रामबुलारे 1/78 भाग वासीदेह
		(6) सलीली	32	81	सरकारी	गैर कृषि	0.2327	पंचायत देह
				136	सरकारी	गैर कृषि	0.0034	पंचायत देह
		(6) मंडेबरी	27	64	सरकारी	गैर कृषि	0.0236	ग्राम पंचायत
				63	सरकारी	गैर कृषि	0.5082	ग्राम पंचायत
				24/1	सरकारी	गैर कृषि	0.1650	ग्राम पंचायत
				23	सरकारी	गैर कृषि	0.2000	ग्राम पंचायत
				18	सरकारी	गैर कृषि	0.1467	ग्राम पंचायत
				19	सरकारी	गैर कृषि	0.3058	ग्राम पंचायत
				22	सरकारी	गैर कृषि	0.0309	ग्राम पंचायत
				20	सरकारी	गैर कृषि	0.2249	ग्राम पंचायत
				11	सरकारी	गैर कृषि	0.1113	ग्राम पंचायत
				25/1	सरकारी	गैर कृषि	0.0894	ग्राम पंचायत
			28	16	निजी	कृषि	0.0506	सरखा, सोनु, प्रेमा, तुलसी, पुत्रान व सन्तो विधावा ब्रम्हू पुत्र नन्दू हर पांच समभाग 1/2 भाग लहसन पुत्र नन्दू पुत्र घासी 1/2 भाग वासीदेह
				15	निजी	कृषि	0.2950	सरखा, सोनु, प्रेमा, तुलसी, पुत्रान व सन्तो विधावा ब्रम्हू पुत्र नन्दू हर पांच समभाग 1/2 भाग लहसन पुत्र नन्दू पुत्र घासी 1/2 भाग वासीदेह
				8	निजी	कृषि	0.2687	रविदत्त पुत्र बाबुराम पुत्र चरणजी लाल वासीदेह
				13	निजी	कृषि	0.0689	रविदत्त पुत्र बाबुराम पुत्र चरणजी लाल वासीदेह
				12	निजी	कृषि	0.0025	रविदत्त पुत्र बाबुराम पुत्र चरणजी लाल वासीदेह
				9	निजी	कृषि	0.3778	रविदत्त पुत्र बाबुराम पुत्र चरणजी लाल वासीदेह
				14	निजी	कृषि	0.2473	कैहर सिंह, राम सिंह, अमर सिंह पुत्रान सावन राम पुत्र छोदू राम हर तीन समभाग वासीदेह
				7	निजी	कृषि	0.0854	कैहर सिंह, राम सिंह, अमर सिंह पुत्रान सावन राम पुत्र छोदू राम हर तीन समभाग वासीदेह
				10	निजी	कृषि	0.0025	रिखी राम, करनैल सिंह, धर्म सिंह, रघवीर सिंह पुत्रान सुरजा राम पुत्र साधू राम हर चार समभाग वासीदेह
				1	निजी	कृषि	0.0349	रिखी राम, करनैल सिंह, धर्म सिंह, रघवीर सिंह पुत्रान सुरजा राम पुत्र साधू राम हर चार समभाग वासीदेह
			29	5	निजी	कृषि	0.0989	रिखी राम, करनैल सिंह, धर्म सिंह, रघवीर सिंह पुत्रान सुरजा राम पुत्र साधू राम हर चार समभाग वासीदेह
				4	निजी	कृषि	0.0025	रिखी राम, करनैल सिंह, धर्म सिंह, रघवीर सिंह पुत्रान सुरजा राम पुत्र साधू राम हर चार समभाग वासीदेह
			20	24	निजी	कृषि	0.0270	रिखी राम, करनैल सिंह, धर्म सिंह, रघवीर सिंह पुत्रान सुरजा राम पुत्र साधू राम हर चार समभाग वासीदेह
				16	निजी	कृषि	0.0090	पाला राम पुत्र तेलु राम वासीदेह
		(7) गलीली	34	24	निजी	कृषि	0.0697	बसन्ती विधावा आसा राम पुत्र प्रमोदयाल वासीदेह
				23	निजी	कृषि	0.0978	बसन्ती विधावा आसा राम पुत्र प्रमोदयाल वासीदेह
			33	15	निजी	कृषि	0.0506	बसन्ती विधावा आसा राम पुत्र प्रमोदयाल वासीदेह
				14	निजी	कृषि	0.1301	बसन्ती विधावा आसा राम पुत्र प्रमोदयाल वासीदेह
				13	निजी	कृषि	0.0025	बसन्ती विधावा आसा राम पुत्र प्रमोदयाल वासीदेह
			34	22	निजी	कृषि	0.0025	रिखीराम, करनैल सिंह, धर्म सिंह, रघवीर सिंह पुत्रान सुरजा राम हर चार समभाग वासीदेह

क्रमांक संख्या	तहसील/तालूका का नाम	गांव का नाम	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे०)	भूस्वामी/भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				19	निजी	कृषि	0.0675	रिखीराम, करनैल सिंह, धर्म सिंह, रणवीर सिंह पुत्रान सुरजा राम हर घार समभाग वासीदेह
				20	निजी	कृषि	0.0734	राम सिंह, मानसिंह, हरपाल सिंह ऋषिपाल सिंह, संजीव कुमार पुत्रान य बाला देवी, सोना देवी पुत्रीयां गेन्दा राम पुत्र जेतु हर सात समभाग वासीदेह
			33	16	निजी	कृषि	0.0045	राम सिंह, मानसिंह, हरपाल सिंह ऋषिपाल सिंह, संजीव कुमार पुत्रान य बाला देवी, सोना देवी पुत्रीयां गेन्दा राम पुत्र जेतु हर सात समभाग वासीदेह
				7/2	निजी	कृषि	0.0084	अमरनाथ, अमर सिंह पुत्रान देसराज पुत्र तेलु हर दो समभाग वासीदेह
				128	सरकारी	गैर कृषि	0.3193	केंद्रीय सरकार
				8/2	निजी	कृषि	0.1181	भजन सिंह पुत्र बारु राम पुत्र लोती राम वासीदेह
				9	निजी	कृषि	0.1433	भजन सिंह पुत्र बारु राम पुत्र लोती राम वासीदेह
				10	निजी	कृषि	0.0197	भजन सिंह पुत्र बारु राम पुत्र लोती राम वासीदेह
			32	5	निजी	कृषि	0.1467	भजन सिंह पुत्र बारु राम पुत्र लोती राम वासीदेह
			33	1/2	निजी	कृषि	0.0944	लक्ष्मी टन्ज, पाला राम, शिवधरन, शिव कुमार, शामलाल, नरेश कुमार पुत्रान रामसरूप पुत्र आसा हर छः समभाग वासीदेह व भजन सिंह पुत्र बारु राम पुत्र लोती राम वासीदेह
			32	4/1	निजी	कृषि	0.0641	लक्ष्मीचन्द, रामपाल, शिवधरन, शिवकुमार, श्यामकुमार, नरेश कुमार पुत्रान रामसरूप पुत्र आसा राम हर छः समभाग वासीदेह
			25	23	निजी	कृषि	0.1467	लक्ष्मीचन्द, रामपाल, शिवधरन, शिवकुमार, श्यामकुमार, नरेश कुमार पुत्रान रामसरूप पुत्र आसा राम हर छः समभाग वासीदेह
				22	निजी	कृषि	0.0675	लक्ष्मीचन्द, रामपाल, शिवधरन, शिवकुमार, श्यामकुमार, नरेश कुमार पुत्रान रामसरूप पुत्र आसा राम हर छः समभाग वासीदेह
				19/3	निजी	कृषि	0.0646	लक्ष्मीचन्द, रामपाल, शिवधरन, शिवकुमार, श्यामकुमार, नरेश कुमार पुत्रान रामसरूप पुत्र आसा राम हर छः समभाग वासीदेह
			26	13	निजी	कृषि	0.0100	लक्ष्मीचन्द, रामपाल, शिवधरन, शिवकुमार, श्यामकुमार, नरेश कुमार पुत्रान रामसरूप पुत्र आसा राम हर छः समभाग वासीदेह
				14/2	निजी	कृषि	0.0100	लक्ष्मीचन्द, रामपाल, शिवधरन, शिवकुमार, श्यामकुमार, नरेश कुमार पुत्रान रामसरूप पुत्र आसा राम हर छः समभाग वासीदेह
			27	6	निजी	कृषि	0.0100	लक्ष्मीचन्द, रामपाल, शिवधरन, शिवकुमार, श्यामकुमार, नरेश कुमार पुत्रान रामसरूप पुत्र आसा राम हर छः समभाग वासीदेह
			25	24/1	निजी	कृषि	0.0894	लक्ष्मीचन्द, रामपाल, शिवधरन, शिवकुमार, श्यामकुमार, नरेश कुमार पुत्रान रामसरूप पुत्र आसा राम हर छः समभाग वासीदेह
				20	निजी	कृषि	0.0967	ओमचन्द, तिलक राम पुत्रान बीरु पुत्र नन्दु हर दो समभाग 2/3 भाग गुरदयाल पुत्र बीरु पुत्र नन्दु रहन हिस्सा 1/3 भाग शान्ति सरूप पुत्र बिशनाराम 1/3 भाग वासीदेह मुरतहन
			26	16/2	निजी	कृषि	0.0956	ओमचन्द, तिलक राम पुत्रान बीरु पुत्र नन्दु हर दो समभाग 2/3 भाग गुरदयाल पुत्र बीरु पुत्र नन्दु रहन हिस्सा 1/3 भाग शान्ति सरूप पुत्र बिशनाराम 1/3 भाग वासीदेह मुरतहन
				16/1	सरकारी	गैर कृषि	0.0025	हरियाण सरकार
				131	सरकारी	गैर कृषि	0.0056	हरियाण सरकार
				9	निजी	कृषि	0.0100	रामसरूप पुत्र आसा राम पुत्र जगन्नाथ वासीदेह
				12	निजी	कृषि	0.0050	रामसरूप पुत्र आसा राम पुत्र जगन्नाथ वासीदेह
				10	सरकारी	गैर कृषि	0.0100	हरियाण सरकार
			27	3	सरकारी	गैर कृषि	0.0200	पंचायत देह
				4	निजी	कृषि	0.0300	पवन कुमार, रामकुमार, राज कुमार, मुखराज, तिलक राज पुत्रान ताराचन्द हर पांच समभाग 1/2 भाग, मामचन्द पुत्र करेशनी 1/2 भाग वासीदेह

क्रमांक खण्ड	तहसील/तालूक का नाम	गाँव का नाम	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे०)	भूस्वामी/भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5	निजी	कृषि	0.0200	माईधन पुत्र जगीर सिंह पुत्र माडु 99/1292 भाग, शिवधरन पुत्र जगीर सिंह पुत्र माडु राम 68/323 भाग, नसीब सिंह, नाथब सिंह पुत्रान जसमेर सिंह पुत्र मडु राम हर दो समभाग 1/4 भाग बलजीत कौर पत्नी रामशेर सिंह पुत्र कस्तु राम 1/2 भाग वासीदेह व लक्ष्मीचन्द, पालाराम, शिव कुमार, शिवधरन, श्याम, नरेश कुमार पुत्रान रामसरूप पुत्र आसा राम हर छः समभाग वासीदेह
2	मुस्ताफाबाद	(1) हसनपुर	13	16	निजी	कृषि	0.0742	बलजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1375/10123 भाग, दिलबाग सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 1192/10123 भाग, बन्ता सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह 313/10123 भाग, वस्ता सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह 1081/10123 भाग, जर्नेल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 683/10123 भाग सोहन सिंह, भादूर सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर दो समभाग 684/10123 भाग हरमिन्द सिंह, नाहर सिंह पुत्रान अरण सिंह पुत्र खेम सिंह हर दो समभाग 832/10123 भाग, मुहमद हनीफ पुत्र शरफ अली पुत्र मौजू 1585/20246 भाग, हरीना बेगम पत्नी मुहमद हनीफ 1585/20246 भाग मनसब अली पुत्र रहीम पुत्र रसूला 472/10123 भाग, मंगल राम पुत्र पंजाबा 951/10123 भाग, नरेश कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र पंजाबा 475/10123 भाग रणदीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटा राम 475/10123 भाग, शान्ती सरूप पुत्री फकीर चन्द पुत्र छोटन लाल 3/10123 भाग, सोहन लाल पुत्र कुडा राम पुत्र कलिया राम 2/10123 भाग वासीदेह
				17	निजी	कृषि	0.0809	बलजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1375/10123 भाग, दिलबाग सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 1192/10123 भाग, बन्ता सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह 313/10123 भाग, वस्ता सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह 1081/10123 भाग, जर्नेल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 683/10123 भाग सोहन सिंह, भादूर सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर दो समभाग 684/10123 भाग हरमिन्द सिंह, नाहर सिंह पुत्रान अरण सिंह पुत्र खेम सिंह हर दो समभाग 832/10123 भाग, मुहमद हनीफ पुत्र शरफ अली पुत्र मौजू 1585/20246 भाग, हरीना बेगम पत्नी मुहमद हनीफ 1585/20246 भाग मनसब अली पुत्र रहीम पुत्र रसूला 472/10123 भाग, मंगल राम पुत्र पंजाबा 951/10123 भाग, नरेश कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र पंजाबा 475/10123 भाग रणदीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटा राम 475/10123 भाग, शान्ती सरूप पुत्री फकीर चन्द पुत्र छोटन लाल 3/10123 भाग, सोहन लाल पुत्र कुडा राम पुत्र कलिया राम 2/10123 भाग वासीदेह
				18/1	निजी	कृषि	0.0669	बलजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1375/10123 भाग, दिलबाग सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 1192/10123 भाग, बन्ता सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह 313/10123 भाग, वस्ता सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह 1081/10123 भाग, जर्नेल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 683/10123 भाग सोहन सिंह, भादूर सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर दो समभाग 684/10123 भाग हरमिन्द सिंह, नाहर सिंह पुत्रान अरण सिंह पुत्र खेम सिंह हर दो समभाग 832/10123 भाग, मुहमद हनीफ पुत्र शरफ अली पुत्र मौजू 1585/20246 भाग, हरीना बेगम पत्नी मुहमद हनीफ 1585/20246 भाग मनसब अली पुत्र रहीम पुत्र रसूला 472/10123 भाग, मंगल राम पुत्र पंजाबा 951/10123 भाग, नरेश कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र पंजाबा 475/10123 भाग रणदीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटा राम 475/10123 भाग, शान्ती सरूप पुत्री फकीर चन्द पुत्र छोटन लाल 3/10123 भाग, सोहन लाल पुत्र कुडा राम पुत्र कलिया राम 2/10123 भाग वासीदेह

4551 GI/10-2

क्रमांक संख्या	तहसील/तालूक का नाम	गांव का नाम	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे०)	भूस्वामी/भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				13	निजी	कृषि	0.0956	बलजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1375/10123 भाग, दिलबाग सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 1192/10123 भाग, बन्ता सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह 313/10123 भाग, वस्ता सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह 1081/10123 भाग, जरनैल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 683/10123 भाग सोहन सिंह, भादूर सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर दो समभाग 684/10123 भाग हरमिन्द्र सिंह, नाहर सिंह पुत्रान श्रवण सिंह पुत्र खेम सिंह हर दो समभाग 832/10123 भाग, मुहमद हनीफ पुत्र शरफ अली पुत्र मौजू 1585/20246 भाग, हशीना बेगम पत्नी मुहमद हनीफ 1585/20246 भाग मनसब अली पुत्र रहीमू पुत्र रसूला 472/10123 भाग, मंगत राम पुत्र पंजाबा 951/10123 भाग, नरेश कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र पंजाबा 475/10123 भाग रणदीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटा राम 475/10123 भाग, शान्ती सरूप पुत्री फकीर चन्द पुत्र छोटन लाल 3/10123 भाग, सोहन लाल पुत्र कुडा राम पुत्र रलिया राम 2/10123 भाग वासीदेह
				12	निजी	कृषि	0.0989	बलजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1375/10123 भाग, दिलबाग सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 1192/10123 भाग, बन्ता सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह 313/10123 भाग, वस्ता सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह 1081/10123 भाग, जरनैल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 683/10123 भाग सोहन सिंह, भादूर सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर दो समभाग 684/10123 भाग हरमिन्द्र सिंह, नाहर सिंह पुत्रान श्रवण सिंह पुत्र खेम सिंह हर दो समभाग 832/10123 भाग, मुहमद हनीफ पुत्र शरफ अली पुत्र मौजू 1585/20246 भाग, हशीना बेगम पत्नी मुहमद हनीफ 1585/20246 भाग मनसब अली पुत्र रहीमू पुत्र रसूला 472/10123 भाग, मंगत राम पुत्र पंजाबा 951/10123 भाग, नरेश कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र पंजाबा 475/10123 भाग रणदीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटा राम 475/10123 भाग, शान्ती सरूप पुत्री फकीर चन्द पुत्र छोटन लाल 3/10123 भाग, सोहन लाल पुत्र कुडा राम पुत्र रलिया राम 2/10123 भाग वासीदेह
				11	निजी	कृषि	0.0025	बलजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1375/10123 भाग, दिलबाग सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 1192/10123 भाग, बन्ता सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह 313/10123 भाग, वस्ता सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह 1081/10123 भाग, जरनैल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 683/10123 भाग सोहन सिंह, भादूर सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर दो समभाग 684/10123 भाग हरमिन्द्र सिंह, नाहर सिंह पुत्रान श्रवण सिंह पुत्र खेम सिंह हर दो समभाग 832/10123 भाग, मुहमद हनीफ पुत्र शरफ अली पुत्र मौजू 1585/20246 भाग, हशीना बेगम पत्नी मुहमद हनीफ 1585/20246 भाग मनसब अली पुत्र रहीमू पुत्र रसूला 472/10123 भाग, मंगत राम पुत्र पंजाबा 951/10123 भाग, नरेश कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र पंजाबा 475/10123 भाग रणदीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटा राम 475/10123 भाग, शान्ती सरूप पुत्री फकीर चन्द पुत्र छोटन लाल 3/10123 भाग, सोहन लाल पुत्र कुडा राम पुत्र रलिया राम 2/10123 भाग वासीदेह

क्रमांक संख्या	तहसील/तालुका का नाम	गांव का नाम	मरसील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे०)	दस्तावेज/दस्तावेजों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10	निजी	कृषि	0.1012	बलजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1375/10123 भाग, दिलबाग सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 1192/10123 भाग, बन्ता सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह 313/10123 भाग, वस्ता सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह 1081/10123 भाग, जरनैल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 683/10123 भाग सोहन सिंह, भादूर सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर दो समभाग 684/10123 भाग हरमिन्द्र सिंह, नाहर सिंह पुत्रान श्रवण सिंह पुत्र खेम सिंह हर दो समभाग 832/10123 भाग, मुहमद हनीफ पुत्र शारफ अली पुत्र मौजू 1585/20246 भाग, हरीना बेगम पत्नी मुहमद हनीफ 1585/20246 भाग मनसब अली पुत्र रहीम पुत्र रसूला 472/10123 भाग, मंगत राम पुत्र पंजाबा 951/10123 भाग, नरेश कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र पंजाबा 475/10123 भाग रणदीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटा राम 475/10123 भाग, शान्ती सरूप पुत्री फकीर चन्द पुत्र छोटन लाल 3/10123 भाग, सोहन लाल पुत्र कुडा राम पुत्र कलिया राम 2/10123 भाग वासीदेह
			14	6/1	निजी	कृषि	0.0989	बलजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1375/10123 भाग, दिलबाग सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 1192/10123 भाग, बन्ता सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह 313/10123 भाग, वस्ता सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह 1081/10123 भाग, जरनैल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 683/10123 भाग सोहन सिंह, भादूर सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर दो समभाग 684/10123 भाग हरमिन्द्र सिंह, नाहर सिंह पुत्रान श्रवण सिंह पुत्र खेम सिंह हर दो समभाग 832/10123 भाग, मुहमद हनीफ पुत्र शारफ अली पुत्र मौजू 1585/20246 भाग, हरीना बेगम पत्नी मुहमद हनीफ 1585/20246 भाग मनसब अली पुत्र रहीम पुत्र रसूला 472/10123 भाग, मंगत राम पुत्र पंजाबा 951/10123 भाग, नरेश कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र पंजाबा 475/10123 भाग रणदीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटा राम 475/10123 भाग, शान्ती सरूप पुत्री फकीर चन्द पुत्र छोटन लाल 3/10123 भाग, सोहन लाल पुत्र कुडा राम पुत्र कलिया राम 2/10123 भाग वासीदेह
				7	निजी	कृषि	0.0025	बलजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1375/10123 भाग, दिलबाग सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 1192/10123 भाग, बन्ता सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह 313/10123 भाग, वस्ता सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह 1081/10123 भाग, जरनैल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 683/10123 भाग सोहन सिंह, भादूर सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर दो समभाग 684/10123 भाग हरमिन्द्र सिंह, नाहर सिंह पुत्रान श्रवण सिंह पुत्र खेम सिंह हर दो समभाग 832/10123 भाग, मुहमद हनीफ पुत्र शारफ अली पुत्र मौजू 1585/20246 भाग, हरीना बेगम पत्नी मुहमद हनीफ 1585/20246 भाग मनसब अली पुत्र रहीम पुत्र रसूला 472/10123 भाग, मंगत राम पुत्र पंजाबा 951/10123 भाग, नरेश कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र पंजाबा 475/10123 भाग रणदीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटा राम 475/10123 भाग, शान्ती सरूप पुत्री फकीर चन्द पुत्र छोटन लाल 3/10123 भाग, सोहन लाल पुत्र कुडा राम पुत्र कलिया राम 2/10123 भाग वासीदेह

क्रमांक संख्या	तहसील/तालूक का नाम	गांव का नाम	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे०)	भूस्वामी/भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4	निजी	कृषि	0.0944	बलजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1375/10123 भाग, दिलबाग सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 1192/10123 भाग, बन्ता सिंह पुत्र महिन्द सिंह पुत्र कमल सिंह 313/10123 भाग, वस्ता सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह 1081/10123 भाग, जरनैल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 683/10123 भाग सोहन सिंह, भादूर सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर दो समभाग 684/10123 भाग हरमिन्द सिंह, नाहर सिंह पुत्रान अरण सिंह पुत्र खेम सिंह हर दो समभाग 832/10123 भाग, मुहमद हनीफ पुत्र शरफ अली पुत्र मौजू 1585/20246 भाग, हशीना बेगम पत्नी मुहमद हनीफ 1585/20246 भाग मनसब अली पुत्र रहीमू पुत्र रसूला 472/10123 भाग, मंगत राम पुत्र पंजाबा 951/10123 भाग, नरेश कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र पंजाबा 475/10123 भाग रणदीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटा राम 475/10123 भाग, शान्ती सरूप पुत्री फकीर चन्द पुत्र छोटन लाल 3/10123 भाग, सोहन लाल पुत्र कुडा राम पुत्र कलिया राम 2/10123 भाग वासीदेह
				3	निजी	कृषि	0.0349	बलजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र हरनाम सिंह 1375/10123 भाग, दिलबाग सिंह पुत्र साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 1192/10123 भाग, बन्ता सिंह पुत्र महिन्द सिंह पुत्र कमल सिंह 313/10123 भाग, वस्ता सिंह पुत्र वरयाम सिंह पुत्र देवा सिंह 1081/10123 भाग, जरनैल सिंह पुत्र दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 683/10123 भाग सोहन सिंह, भादूर सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर दो समभाग 684/10123 भाग हरमिन्द सिंह, नाहर सिंह पुत्रान अरण सिंह पुत्र खेम सिंह हर दो समभाग 832/10123 भाग, मुहमद हनीफ पुत्र शरफ अली पुत्र मौजू 1585/20246 भाग, हशीना बेगम पत्नी मुहमद हनीफ 1585/20246 भाग मनसब अली पुत्र रहीमू पुत्र रसूला 472/10123 भाग, मंगत राम पुत्र पंजाबा 951/10123 भाग, नरेश कुमार पुत्र छोटा राम पुत्र पंजाबा 475/10123 भाग रणदीप सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र छोटा राम 475/10123 भाग, शान्ती सरूप पुत्री फकीर चन्द पुत्र छोटन लाल 3/10123 भाग, सोहन लाल पुत्र कुडा राम पुत्र कलिया राम 2/10123 भाग वासीदेह
				32	निजी	गैर कृषि	0.0050	कबरलाल, अमोल सिंह पुत्रान लक्ष्मन हर दो समभाग 829/1050 भाग, न्यामत अली पुत्र रहमतुला 101/1050 भाग, नसीरुद्दीन पुत्र अब्दुल 13/420 भाग मुन्ही खां, न्यामत अली पुत्रान रहमतुला हर दो समभाग 17/350 भाग शरफ अली पुत्र मौजू 17/2100 भाग सहाबुद्दीन पुत्र मौजू 17/2100 भाग मनसब अली पुत्र रहीमू 11/2100 भाग रसीद पुत्र असमाईल 13/2100 भाग केन्द्रीय सरकार एकवायर प्रापट्री 1/140 भाग वासीदेह
				40	निजी	गैर कृषि	0.0050	कबरलाल, अमोल सिंह पुत्रान लक्ष्मन हर दो समभाग 829/1050 भाग, न्यामत अली पुत्र रहमतुला 101/1050 भाग, नसीरुद्दीन पुत्र अब्दुल 13/420 भाग मुन्ही खां, न्यामत अली पुत्रान रहमतुला हर दो समभाग 17/350 भाग शरफ अली पुत्र मौजू 17/2100 भाग सहाबुद्दीन पुत्र मौजू 17/2100 भाग मनसब अली पुत्र रहीमू 11/2100 भाग रसीद पुत्र असमाईल 13/2100 भाग केन्द्रीय सरकार एकवायर प्रापट्री 1/140 भाग वासीदेह
				41	निजी	गैर कृषि	0.0050	कबरलाल, अमोल सिंह पुत्रान लक्ष्मन हर दो समभाग 829/1050 भाग, न्यामत अली पुत्र रहमतुला 101/1050 भाग, नसीरुद्दीन पुत्र अब्दुल 13/420 भाग मुन्ही खां, न्यामत अली पुत्रान रहमतुला हर दो समभाग 17/350 भाग शरफ अली पुत्र मौजू 17/2100 भाग सहाबुद्दीन पुत्र मौजू 17/2100 भाग मनसब अली पुत्र रहीमू 11/2100 भाग रसीद पुत्र असमाईल 13/2100 भाग केन्द्रीय सरकार एकवायर प्रापट्री 1/140 भाग वासीदेह



क्रमांक संख्या	तहसील/तालूक का नाम	गांव का नाम	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे०)	भूस्वामी/भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				46	निजी	गैर कृषि	0.0050	कंवरलाल, अमोल सिंह पुत्रान लक्ष्मण हर दो समभाग 829/1050 भाग, न्यामत अली पुत्र रहमतुला 101/1050 भाग, नसीरुद्दीन पुत्र अब्दुल 13/420 भाग मुन्शी खां, न्यामत अली पुत्रान रहमतुला हर दो समभाग 17/350 भाग शरफ अली पुत्र मौजू 17/2100 भाग सहाबुद्दीन पुत्र मौजू 17/2100 भाग मनसब अली पुत्र रहीमू 11/2100 भाग रसीद पुत्र असमाईल 13/2100 भाग केन्द्रीय सरकार एकवायर प्रापट्री 1/140 भाग वासीदेह
				49	निजी	गैर कृषि	0.0025	कंवरलाल, अमोल सिंह पुत्रान लक्ष्मण हर दो समभाग 829/1050 भाग, न्यामत अली पुत्र रहमतुला 101/1050 भाग, नसीरुद्दीन पुत्र अब्दुल 13/420 भाग मुन्शी खां, न्यामत अली पुत्रान रहमतुला हर दो समभाग 17/350 भाग शरफ अली पुत्र मौजू 17/2100 भाग सहाबुद्दीन पुत्र मौजू 17/2100 भाग मनसब अली पुत्र रहीमू 11/2100 भाग रसीद पुत्र असमाईल 13/2100 भाग केन्द्रीय सरकार एकवायर प्रापट्री 1/140 भाग वासीदेह
				38	निजी	गैर कृषि	0.2100	मुखायार कौर फली खेम सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 1/2 भाग पंजाब कौर विधवा व जसवन्त सिंह पुत्र व हरकेश कौर, बेअन कौर, सतपाल कौर पुत्रीयां दयाल सिंह पुत्र गुरमुख सिंह हर पांच समभाग 1/2 भाग वासीदेह
				39	निजी	गैर कृषि	0.0050	कंवर लाल, अमोल सिंह पुत्रान लक्ष्मण सिंह पुत्र गजीन्द्र सिंह हर दो समभाग वासी बुडिया
				43	निजी	गैर कृषि	0.0050	तुंगल पुत्र जेटू पुत्र वीर वासीदेह
				44	निजी	गैर कृषि	0.0050	इन्द्राज, जिया, नाथा पुत्रान व प्रतापी, तारो पुत्रीयां व बाडी विधवा कुन्दन पुत्र जेटू हर छः समभाग वासीदेह
				45	निजी	गैर कृषि	0.0050	मेन्दा पुत्र वैशाखी पुत्र वीर वासीदेह
				47	निजी	गैर कृषि	0.0050	किशाना राम पुत्र कलीया राम पुत्र सन्तारु 1/3 भाग राजा राम उर्फ मामराज पुत्र कुडा राम पुत्र कलया राम 1/3 भाग, श्यो राम, गुलाल चन्द, सोहन लाल, मोहन लाल पुत्रान कुडा राम पुत्र कलीया राम हर चार समभाग 4/15 भाग संजीव कुमार पुत्र बनारसी दास पुत्र कुडा राम 1/15 भाग वासीदेह
				48	निजी	गैर कृषि	0.0025	किशन राम पुत्र कलीया राम पुत्र सन्तारु 1/3 भाग राजा राम उर्फ मामराज पुत्र कुडा राम पुत्र कलया राम 1/3 भाग, श्यो राम, गुलाल चन्द, सोहन लाल, मोहन लाल पुत्रान कुडा राम पुत्र कलीया राम हर चार समभाग 4/15 भाग संजीव कुमार पुत्र बनारसी दास पुत्र कुडा राम 1/15 भाग वासीदेह
		(2) दर्राजपुर	18	29	निजी	कृषि	0.0028	कंवर लाल, अमोल सिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्रान गजेन्द्र सिंह हर तीन समभाग 123/175 भाग, रूप चन्द पुत्र बख्तावर सिंह पुत्र खुशिया 52/175 भाग वासीदेह
			17	30	निजी	कृषि	0.6746	कंवर लाल, अमोल सिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्रान गजेन्द्र सिंह हर तीन समभाग 123/175 भाग, रूप चन्द पुत्र बख्तावर सिंह पुत्र खुशिया 52/175 भाग वासीदेह
		(3) कलापुर	24	2/1	सरकारी	गैर कृषि	0.0675	प्रदेश सरकार
				1/1	सरकारी	गैर कृषि	0.0101	प्रदेश सरकार
				98	सरकारी	गैर कृषि	0.0124	प्रदेश सरकार
				90	निजी	गैर कृषि	0.0135	फगू पुत्र किशाना पुत्र जेटू वासीदेह
			18	24	निजी	कृषि	0.0632	रामपाल, शिशपाल, अमन कुमार पुत्र कलिया राम पुत्र राजाराम हर तीन समभाग वासी स्थालबा
				23	निजी	कृषि	0.0247	शेर सिंह, जगदीश चन्द, ओमपाल सिंह, ओमबीर सिंह, राजबीर सिंह पुत्रान बाबूराम पुत्र रसाला हर पांच समभाग वासी स्थालबा
				19	निजी	कृषि	0.0548	शेर सिंह, जगदीश चन्द, ओमपाल सिंह, ओमबीर सिंह, राजबीर सिंह पुत्रान बाबूराम पुत्र रसाला हर पांच समभाग वासी स्थालबा
		(4) स्थालबा	30	19	निजी	कृषि	0.0253	रामपाल, शिशपाल, अमन कुमार पुत्र कलिया राम पुत्र राजाराम हर तीन समभाग वासी स्थालबा
				20	निजी	कृषि	0.0489	रामपाल, शिशपाल, अमन कुमार पुत्र कलिया राम पुत्र राजाराम हर तीन समभाग वासी स्थालबा

4551 GI/10-3

क्रमिक संख्या	तहसील/तालुका का नाम	गांव का नाम	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे०)	भूस्वामी/भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			31	15	निजी	कृषि	0.0495	रामपाल, शिशपाल, अमन कुमार पुत्र कलिया राम पुत्र राजाराम हर तीन समभाग वासी स्यालबा
				14	निजी	कृषि	0.0489	रामपाल, शिशपाल, अमन कुमार पुत्र कलिया राम पुत्र राजाराम हर तीन समभाग वासी स्यालबा
				13	निजी	कृषि	0.0025	जयपाल पुत्र राजाराम पुत्र हरनाम वासीदेह
				8	निजी	कृषि	0.0495	जयपाल पुत्र राजाराम पुत्र हरनाम वासीदेह
				9	निजी	कृषि	0.0489	जयपाल पुत्र राजाराम पुत्र हरनाम वासीदेह
				10	निजी	कृषि	0.0725	यशपाल, कंवरपाल, रामकुमार पुत्रान नानक पुत्र राजाराम हरपाल पुत्र नानक पुत्र राजाराम प्रत्येक 1/4 भाग, मधू त्यागी पत्नी राजकुमार पुत्र ईश्वर दत्त 1/8 भाग, कुसुम त्यागी पत्नी नरेन्द्र पुत्र ईश्वर दत्त 1/8 भाग वासीदेह मुलतहन
			26	23	निजी	कृषि	0.0031	यशपाल, कंवरपाल, रामकुमार पुत्रान नानक पुत्र राजाराम हरपाल पुत्र नानक पुत्र राजाराम प्रत्येक 1/4 भाग, मधू त्यागी पत्नी राजकुमार पुत्र ईश्वर दत्त 1/8 भाग, कुसुम त्यागी पत्नी नरेन्द्र पुत्र ईश्वर दत्त 1/8 भाग वासीदेह मुलतहन
			32	5	निजी	कृषि	0.0214	हरपाल, यशपाल, कंवरपाल, रामकुमार पुत्रान नानक पुत्र राजाराम हर चार समभाग वासीदेह
				4/3	निजी	कृषि	0.0039	हरीचन्द, मदनलाल पुत्रान गोबर्धन दास हर दो समभाग 1/8 भाग, श्रीमती रानी देवी पुत्री गोबर्धन दास 1/12 भाग, धन देवी विधवा व गौतम पुत्र व श्रीमती तरावती पुत्री चन्द शेखर हर तीन समभाग 1/12 भाग, हरदत्त पुत्र सरधाराम पुत्र हीरा 1/3 भाग वासीदेह, हरीकिशन पुत्र देवीदयाल पुत्र सरधाराम 1/3 भाग वासी सरान
				73	सरकारी	गैर कृषि	0.0652	पंचायत देह
				63	सरकारी	गैर कृषि	0.0025	पंचायत देह
			25	12	सरकारी	गैर कृषि	0.0050	पंचायत देह
				62	सरकारी	गैर कृषि	0.0025	पंचायत देह
				63	सरकारी	गैर कृषि	0.2100	पंचायत देह
				99	सरकारी	गैर कृषि	0.0100	पंचायत देह
				103	सरकारी	गैर कृषि	0.0150	पंचायत देह
				113	सरकारी	गैर कृषि	0.0100	पंचायत देह
				96	निजी	गैर कृषि	0.0050	प्रमाल सिंह पुत्र मुंशी पुत्र हरबंस वासीदेह
				97	निजी	कृषि	0.0050	जनेश कुमार पुत्र करतारा पुत्र शादी 1/2 भाग, धूम सिंह पुत्र करतारा पुत्र शादी प्रत्येक 160/2420 भाग बिला रहन हिस्सा 1050/2420 भाग, जगदीशचन्द पुत्र बाबूराम पुत्र रसाल सिंह 8/121 भाग वासीदेह मुलतहन
				100	निजी	कृषि	0.0125	छप्पू सिंह पुत्र राजाराम पुत्र दत्त सिंह 1/2 भाग श्रीमती विद्यावती विधवा तेलू सिंह पुत्र राजाराम 1/50 भाग, किरण पाल, रामकुमार, कुलबीर सिंह, कृष्ण सिंह पुत्रान तेलू सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग 12/25 वासीदेह
				101	निजी	कृषि	0.0100	छप्पू सिंह पुत्र राजाराम पुत्र दत्त सिंह 1/2 भाग श्रीमती विद्यावती विधवा तेलू सिंह पुत्र राजाराम 1/50 भाग, किरण पाल, रामकुमार, कुलबीर सिंह, कृष्ण सिंह पुत्रान तेलू सिंह पुत्र राजाराम हर चार समभाग 12/25 वासीदेह
				114	निजी	कृषि	0.0210	नकली, बाधू, बचना, नकदा, सोहन पुत्रान चोखा पुत्र मोहना हर पांच समभाग वासीदेह
				115	निजी	कृषि	0.0025	श्रीमती कृपा विधवा तथा श्रीमती नाथो देवी, मेन्दी, बघनी पुत्रियां व बचना, पूर्ण पुत्रान रामा पुत्र घासी हर छः समभाग 1/2 भाग, कशमीर सिंह पुत्र गोविन्द पुत्र कदारा 1/2 भाग वासीदेह
		(6) ऊखाचान्दना	30	25	निजी	कृषि	0.0067	बलदेव सिंह सुखदेव सिंह, वेदपाल पाल पुत्रान सुरजीत सिंह पुत्र सुन्दर सिंह प्रति 3 समभाग 1/2 भाग, मकन्द सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 1/2 वासीदेह

क्रमांक संख्या	तहसील/तालुका का नाम	गांव का नाम	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (है०)	भूस्वामी/भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				24	निजी	कृषि	0.0157	बलदेव सिंह सुखदेव सिंह, वेदपाल पाल पुत्रान सुरजीत सिंह पुत्र सुन्दर सिंह प्रति 3 समभाग 1/2 भाग, मकन्द सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 1/2 वासीदेह
				17/2	सरकारी	गैर कृषि	0.0039	प्रदेश सरकार
				18	सरकारी	कृषि	0.0124	प्रदेश सरकार
				12/1	सरकारी	गैर कृषि	0.0247	प्रदेश सरकार
				20/1	सरकारी	गैर कृषि	0.0025	प्रदेश सरकार
				11	सरकारी	गैर कृषि	0.0989	प्रदेश सरकार
			31	15/1	सरकारी	गैर कृषि	0.0641	प्रदेश सरकार
				6/2	सरकारी	गैर कृषि	0.0067	प्रदेश सरकार
			30	19/1	निजी	कृषि	0.0540	केशनी देवी विधवा सुन्दर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह वासीदेह
				19/2	निजी	कृषि	0.0025	दलजीत कौर विधवा व मनदीप कौर पुत्री व सुरेन्द्र सिंह, बलजिन्द सिंह पुत्रान अवतार सिंह पुत्र भूला सिंह हर चार समभाग 1/3 भाग सुष्मा सिंह, सुरजीत सिंह पुत्रान भूला सिंह हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
			31	14/1	निजी	कृषि	0.0025	संताराम, मेहरचन्द, मामचन्द पुत्रान मोलुराम पुत्र अतरा सिंह हर तीन समभाग वासीदेह
				9	निजी	कृषि	0.0025	संताराम, मेहरचन्द, मामचन्द पुत्रान मोलुराम पुत्र अतरा सिंह हर तीन समभाग वासीदेह
				7	निजी	कृषि	0.0472	बलबीर सिंह, हरविन्द कुमार पुत्रान सन्त राम पुत्र मोलु राम हर दो समभाग 1/3 भाग मेहरचन्द, मामचन्द पुत्रान मोलु राम पुत्र अतरा हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
				8	निजी	कृषि	0.0759	बलबीर सिंह, हरविन्द कुमार पुत्रान सन्त राम पुत्र मोलु राम हर दो समभाग 1/3 भाग मेहरचन्द, मामचन्द पुत्रान मोलु राम पुत्र अतरा हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
				2	निजी	कृषि	0.0438	बलबीर सिंह, हरविन्द कुमार पुत्रान सन्ताराम पुत्र मोलु राम हर दो समभाग रहन हिस्सा 1/3 भाग मेहरचन्द, मामचन्द पुत्रान मोलु राम पुत्र अतरा हर दो समभाग रहन हिस्सा 2/3 भाग जोती राम पुत्र अमीचन्द पुत्र रामजी लाल वासीदेह मुरतहन
				1	निजी	कृषि	0.0495	संजीव कुमार पुत्र सीताराम पुत्र रतनलाल 85/1622 भाग दिनेश कुमार पुत्र सीताराम पुत्र रतनलाल 519/1622 भाग अजय कुमार पुत्र सीताराम पुत्र रतन लाल 809/811 भाग वासीदेह
			32	5	निजी	कृषि	0.0084	योगेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार पुत्र बखतावर सिंह वासीदेह
			25	25/1	निजी	कृषि	0.0607	योगेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार पुत्र बखतावर सिंह वासीदेह
				24	निजी	कृषि	0.0495	राजेन्द्र सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र गुलाब सिंह वासीदेह
				23	निजी	कृषि	0.0236	बलबीर सिंह, राम प्रसाद, रूपचन्द, गुरनाम सिंह पुत्रान करतारा पुत्र कलिया हर चार समभाग वासीदेह
				18/2	निजी	कृषि	0.0382	बलबीर सिंह, राम प्रसाद, रूपचन्द, गुरनाम सिंह पुत्रान करतारा पुत्र कलिया हर चार समभाग वासीदेह
				19	निजी	कृषि	0.0495	बलबीर सिंह, राम प्रसाद, रूपचन्द, गुरनाम सिंह पुत्रान करतारा पुत्र कलिया हर चार समभाग वासीदेह
				20	निजी	कृषि	0.0214	फकीरचन्द, बनारसीदास पुत्र फगूराम पुत्र किशना हर दो समभाग वासीदेह
				11/2	निजी	कृषि	0.0351	फकीरचन्द, बनारसीदास पुत्र फगूराम पुत्र किशना हर दो समभाग वासीदेह
			24	15	निजी	कृषि	0.0742	फकीरचन्द, बनारसीदास पुत्र फगूराम पुत्र किशना हर दो समभाग वासीदेह
				14	निजी	कृषि	0.0408	फकीरचन्द, बनारसीदास पुत्र फगूराम पुत्र किशना हर दो समभाग वासीदेह
				7/2	निजी	कृषि	0.0236	फकीरचन्द, बनारसीदास पुत्र फगूराम पुत्र किशना हर दो समभाग वासीदेह

क्रमांक संख्या	तहसील/तालूक का नाम	गांव का नाम	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे०)	भूस्वामी/भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8	निजी	गैर कृषि	0.0472	फकीरचन्द, बनारसीदास पुत्र फरगुशम पुत्र किशाना हर दो समभाग वासीदेह
				9	निजी	कृषि	0.0326	विनोद सहानी, उषा सहानी, आसा सहानी पुत्रियां इन्द्र सैन पुत्र हुकम चन्द हर तीन समभाग वासीदेह
		(6) दौलतपुर	17	20	सरकारी	गैर कृषि	0.0247	प्रदेश सरकार
				21	निजी	कृषि	0.1394	कृपाल सिंह, प्रदीप पुत्रान व महेन्द्र पत्नी राम किशन पुत्र ब्रह्मा नन्द प्रति 3 समभाग 1/2 भाग रविशंकर पुत्र व कमलेश पत्नी रामेश्वरदास पुत्र ब्रह्मानन्द प्रति 2 समभाग 1/2 भाग वासीदेह
		(7) कुलपुर	52	2	निजी	कृषि	0.0056	राजकुमार, दीपचन्द, नवीन कुमार पुत्रान शिव कुमार पुत्र सुरजीत सिंह हर तीन समभाग वासीदेह
				1/2	निजी	कृषि	0.0051	दर्शन सिंह पुत्र जेठा सिंह पुत्र ज्वाला सिंह हिस्सा 3/10 भाग, राजकुमार दीप चन्द, नवीन कुमार पुत्रान शिव कुमार पुत्र सुरजीत सिंह हर तीन समभाग 7/10 वासीदेह
			48	21/2	निजी	कृषि	0.0180	गुरमीत सिंह, बलविन्द सिंह, करनैल सिंह परविन्द सिंह, कशमीर सिंह पुत्रान नरंजन सिंह पुत्र लाम सिंह हर पांच समभाग रहन हिस्सा 5/6 भाग दर्शन कौर विधवा व जयनैल सिंह, जसबीर सिंह, पुत्रान अजीत सिंह पुत्र नरंजन सिंह हर तीन समभाग रहन हिस्सा 1/6 भाग जगत सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह पुत्र मोती सिंह वासीदेह मुरतहन
			49	25	निजी	कृषि	0.0354	गुरमीत सिंह, बलविन्द सिंह, करनैल सिंह, पलविन्द सिंह, कशमीर सिंह पुत्रान नरंजन सिंह पुत्र लाम सिंह हर पांच समभाग रहन हिस्सा 835/1802 भाग दर्शन कौर विधवा व जयनैल सिंह, जसबीर सिंह, पुत्रान अजीत सिंह पुत्र नरंजन सिंह हर तीन समभाग रहन हिस्सा 127/1802 भाग दर्शन सिंह पुत्र जेठा सिंह पुत्र ज्वाला सिंह रहन हिस्सा 80/267 भाग, राजकुमार दीप चन्द नवीन कुमार पुत्रान शिव कुमार पुत्र सुरजीत सिंह हर तीन समभाग रहन हिस्सा 60/267 भाग, जगत सिंह पुत्र गुरदियाल पुत्र मोती सिंह वासीदेह मुरतहन
				85	सरकारी	गैर कृषि	0.1105	पंचायत देह
				24	निजी	कृषि	0.0098	सहेल सिंह पुत्र नानक सिंह पुत्र राजा सिंह 1/4 भाग, राजिन्द्र सिंह, जगप्रीत सिंह पुत्रान व सुरिन्द्र कौर विधवा बुटा सिंह पुत्र ईशर सिंह हर तीन समभाग 227/904 भाग शेर सिंह पुत्र ईसर सिंह पुत्र हुकम सिंह 51/904 भाग, सुरिन्द्र कौर पुत्री लख्खा सिंह पुत्र हरि सिंह 1/8 भाग नानक चन्द, जगदीश लाल पुत्रान रामजी लाल पुत्र बरकत राम हर दो समभाग 31/226 भाग सुमित्र कौर विधवा व दलीप सिंह रंजीत सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र हरी सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग न मसलव पुत्र 25/452 भाग वासीदेह
				18	निजी	कृषि	0.0742	सहेल सिंह पुत्र नानक सिंह पुत्र राजा सिंह 1/4 भाग, राजिन्द्र सिंह, जगप्रीत सिंह पुत्रान व सुरिन्द्र कौर विधवा बुटा सिंह पुत्र ईशर सिंह हर तीन समभाग 227/904 भाग शेर सिंह पुत्र ईसर सिंह पुत्र हुकम सिंह 51/904 भाग, सुरिन्द्र कौर पुत्री लख्खा सिंह पुत्र हरि सिंह 1/8 भाग नानक चन्द, जगदीश लाल पुत्रान रामजी लाल पुत्र बरकत राम हर दो समभाग 31/226 भाग सुमित्र कौर विधवा व दलीप सिंह रंजीत सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र हरी सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग न मसलव पुत्र 25/452 भाग वासीदेह
				19	निजी	कृषि	0.0413	सहेल सिंह पुत्र नानक सिंह पुत्र राजा सिंह 1/4 भाग, राजिन्द्र सिंह, जगप्रीत सिंह पुत्रान व सुरिन्द्र कौर विधवा बुटा सिंह पुत्र ईशर सिंह हर तीन समभाग 227/904 भाग शेर सिंह पुत्र ईसर सिंह पुत्र हुकम सिंह 51/904 भाग, सुरिन्द्र कौर पुत्री लख्खा सिंह पुत्र हरि सिंह 1/8 भाग नानक चन्द, जगदीश लाल पुत्रान रामजी लाल पुत्र बरकत राम हर दो समभाग 31/226 भाग सुमित्र कौर विधवा व दलीप सिंह रंजीत सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र हरी सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग न मसलव पुत्र 25/452 भाग वासीदेह

4551 GI/10-4

क्रमांक संख्या	तहसील/तालूक का नाम	गाँव का नाम	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे०)	भूस्वामी/भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3/1	निजी	कृषि	0.0100	सहैल सिंह पुत्र नानक सिंह पुत्र राजा सिंह 1/4 भाग, राजिन्द सिंह, जगप्रीत सिंह पुत्रान व सुरिन्द कौर विधवा बुटा सिंह पुत्र ईशर सिंह हर तीन समभाग 227/904 भाग शेर सिंह पुत्र ईसर सिंह पुत्र हुक्म सिंह 51/904 भाग, सुरिन्द कौर पुत्री लख्खा सिंह पुत्र हरि सिंह 1/8 भाग नानक चन्द, जगदीश लाल पुत्रान रामजी लाल पुत्र बरकत राम हर दो समभाग 31/226 भाग सुमित्र कौर विधवा व दलीप सिंह रंजीत सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र हरी सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग न मसलव पुत्र 25/452 भाग वासीदेह
			45	25	निजी	कृषि	0.0025	सहैल सिंह पुत्र नानक सिंह पुत्र राजा सिंह 1/4 भाग, राजिन्द सिंह, जगप्रीत सिंह पुत्रान व सुरिन्द कौर विधवा बुटा सिंह पुत्र ईशर सिंह हर तीन समभाग 227/904 भाग शेर सिंह पुत्र ईसर सिंह पुत्र हुक्म सिंह 51/904 भाग, सुरिन्द कौर पुत्री लख्खा सिंह पुत्र हरि सिंह 1/8 भाग नानक चन्द, जगदीश लाल पुत्रान रामजी लाल पुत्र बरकत राम हर दो समभाग 31/226 भाग सुमित्र कौर विधवा व दलीप सिंह रंजीत सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र हरी सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग न मसलव पुत्र 25/452 भाग वासीदेह
			49	17/2	निजी	कृषि	0.0540	गुरुनाम सिंह, वरयाम सिंह पुत्रान देवा सिंह पुत्र राम सिंह हार दो समभाग वासीदेह
				12/1	निजी	कृषि	0.0551	सहैल सिंह पुत्र नानक सिंह पुत्र राजा राम 1/4 भाग, नानक चन्द, जगदीश लाल पुत्रान रामजी लाल पुत्र बरकत राम हर दो समभाग 1/4 भाग राजिन्द सिंह, जगप्रीत सिंह पुत्रान व सुरिन्द कौर विधवा बुटा सिंह पुत्र ईशर सिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग सुरिन्द कौर पुत्री लखा सिंह पुत्र हरि सिंह 1/8 भाग सुमित्र कौर विधवा व दलीप सिंह रंजीत सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र हरि सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग वासीदेह
				11	निजी	कृषि	0.0978	सहैल सिंह पुत्र नानक सिंह पुत्र राजा राम 1/4 भाग, नानक चन्द, जगदीश लाल पुत्रान रामजी लाल पुत्र बरकत राम हर दो समभाग 1/4 भाग राजिन्द सिंह, जगप्रीत सिंह पुत्रान व सुरिन्द कौर विधवा बुटा सिंह पुत्र ईशर सिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग सुरिन्द कौर पुत्री लखा सिंह पुत्र हरि सिंह 1/8 भाग सुमित्र कौर विधवा व दलीप सिंह रंजीत सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र हरि सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग वासीदेह

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/3-ईस्टर्न कॉरीडोर]

जगदीप राय, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

**MINISTRY OF RAILWAYS****(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th November, 2010

**S.O. 2840(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) number S.O. 914 (E), dated the 20<sup>th</sup> April, 2010, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22<sup>nd</sup> April, 2010 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Yamuna Nagar in the State of Haryana;

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily newspaper Dainik Bhaskar, dated the 28<sup>th</sup> May, 2010 and The Tribune, dated the 23<sup>rd</sup> May, 2010 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas one number of objection was received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project Eastern Dedicated Freight Corridor in the Yamuna agar District int he State of Haryana.								
Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jagadhari	(1) Kalanaur	25	21	Private	Agriculture	0.0225	Amro Devi D/O Krishan Lal S/O Khajana Vasideh
			26	16	Private	Agriculture	0.0025	Amro Devi D/O Krishan Lal S/O Khajana Vasideh
				15	Private	Agriculture	0.1467	Amro Devi D/O Krishan Lal S/O Khajana Vasideh
			25	20	Private	Agriculture	0.3000	Amro Devi D/O Krishan Lal S/O Khajana Vasideh & Jagmal Singh, Dhoom Singh, Prem Singh, Esam Singh S/O Beer Singh each 4 equal parts Vasideh
			25	11	Private	Agriculture	0.1012	Jagmal Singh, Dhum Singh, Prem Singh, Esam Singh S/O Beer Singh each 4 equal parts Vasideh
			26	173	Government	Non Agriculture	0.3345	Panchayat deh
				151	Private	Agriculture	0.1712	Lal Singh S/o Khushi ram S/o Chaharam 1/4 part Shyoram, Jaychand, Sahab Singh, Tejpal Singh, Vijay Singh S/o Lal Singh S/o Khushi each 5 equal parts 1/4 bhag Meeha Singh S/o Mutbna Shivdayal S/o Bdama 1/8 part Nar singh, Khilaram, Rajkumar S/o Meeha Singh S/o Mutbna Shivdayal each 3 equal parts 3/8 part Vasideh
				152	Private	Non Agriculture	0.0455	Om Prakash S/O Sohan Lal S/O Kashiram, 2/9 part Hukm Singh S/O Sunder Singh 1/12 part Amreek Singh S/o Kashi Ram 1/9 part Sakuntla Devi Widow & Sunita rani, Anita rani Daughters & Narindra Kumar S/O Ravindra Kumar S/O Gurdiyal each 4 equal part 7/36 part Gurdev Singh S/O Raghubeer 7/36 part Rakesh Kumar S/O Kashi Ram 7/36 part Vasideh
			45		Government	Non Agriculture	0.1023	State Government
		(2) Mandauli		196	Government	Non Agriculture	0.6319	State Government
		(3) Dushani		372	Government	Non Agriculture	0.6709	State Government
		(4) Chandpur	18	78	Government	Non Agriculture	0.0067	Municipal Board Yamuna Nagar
				138	Government	Non Agriculture	0.0270	Municipal Board Yamuna Nagar
				20/2	Private	Agriculture	0.0506	Abul Hasan S/O Sarfu S/O Barkhu 1/2 part Gulam Mohd Niyamat Ali, Liyakat Ali, Satar Ali, Nisar Ali S/o Rashid Hasan S/o Sharfu each 5 equal part 1/2 part Vasideh



Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			19	8	Private	Non Agriculture	0.0101	Abul Hasan S/O Sarfu S/O Barkhu 1/2 part Gulam Mohd Niyamat Ali, Liyakat Ali, Satar Ali, Nisar Ali S/o Rashid Hasan S/o Sharfu each 5 equal part 1/2 part Vasideh
				16	Private	Non Agriculture	0.0025	Abul Hasan S/O Sarfu S/O Barkhu 1/2 part Gulam Mohd, Niyamat Ali, Liyakat Ali, Satar Ali, Nisar Ali S/o Rasid Hasan S/o Sharfoo each 5 equal part 24/79 part Subhash Chand S/O Kashi Ram S/O Asha Ram 11/158 part, Roshan Lal S/O Babu Ram S/O Raja Ram 10/79 part Vasideh
				15	Private	Agriculture	0.0866	Abul Hasan S/O Sarfu S/O Barkhu 61/138 part Gulam Mohd, Liyakat Ali, Niyamat Ali, Satar Ali, Nisar Ali S/o Rasid Hasan S/o Sharfoo each 5 equal part 1/2 part Dharampal S/o Mamchand 4/69 part Vasideh
				14	Private	Agriculture	0.1102	Abul Hasan S/O Sarfu S/O Barkhu 1/2 part Gulam Mohd, Niyamat Ali, Liyakat Ali, Satar Ali, Nisar Ali S/o Rasid Hasan S/o Sharfoo each 5 equal part 7/16 part Lila Devi W/o Baleshwar 5/144 part, Jatindra Kaur W/o Ram kumar 1/72 part, Surendra Kaur D/o Hari Singh 1/72 part Vasideh
				13	Private	Non Agriculture	0.0025	Abul Hasan S/O Sarfu S/O Barkhu 73/156 part Gulam Mohamad, Liyakat Ali, Niyamat Ali, Satar Ali, Nisar Ali S/O Rased Hasan S/O Sarfu each 5 equal part 1/2 part Jatindra Kaur, Surindra Kaur, D/o Heera Singh each 2 equal part 1/156 part Ram Dularey S/o Mahesh Kumar 1/78 Part Parvati W/o Ram Dularey 1/78 part Vasideh
		(5) Sasauli	32	81	Government	Non Agriculture	0.2327	Panchayat deh
				135	Government	Non Agriculture	0.0034	Panchayat deh
		(6) Mandebari	27	64	Government	Non Agriculture	0.0236	Gram Panchayat
				63	Government	Non Agriculture	0.5082	Gram Panchayat
				24/1	Government	Non Agriculture	0.1650	Gram Panchayat
				23	Government	Non Agriculture	0.2000	Gram Panchayat
				18	Government	Non Agriculture	0.1467	Gram Panchayat
				19	Government	Non Agriculture	0.3058	Gram Panchayat
				22	Government	Non Agriculture	0.0309	Gram Panchayat
				20	Government	Non Agriculture	0.2249	Gram Panchayat

HSS1 GI/10-5

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11	Government	Non Agriculture	0.1113	Gram Panchayat
				25/1	Government	Non Agriculture	0.0894	Gram Panchayat
			28	16	Private	Agriculture	0.0506	Sardha, Sonu. Prema, Tulsi. & Santo widow Jhandu s/o Nandu, each five equal part 1/2 Lahsan son Nandu son Ghasi 1/2 part Vasideh
				15	Private	Agriculture	0.2950	Sardha, Sonu. Prema, Tulsi. & Santo widow Jhandu s/o Nandu, each five equal part 1/2 Lahsan son Nandu son Ghasi 1/2 part Vasideh
				8	Private	Agriculture	0.2687	Ravidutt son Baburam son Charanji Lal Vasideh
				13	Private	Agriculture	0.0669	Ravidutt son Baburam son Charanji Lal Vasideh
				12	Private	Agriculture	0.0025	Ravidutt son Baburam son Charanji Lal Vasideh
				9	Private	Agriculture	0.3778	Ravidutt son Baburam son Charanji Lal Vasideh
				14	Private	Agriculture	0.2473	Kehar singh Ram Singh, Amar Singh S/o Sawan Ram S/o Chhotu ram each three equal part Vasideh
				7	Private	Agriculture	0.0854	Kehar singh Ram Singh, Amar Singh S/o Sawan Ram S/o Chhotu ram each three equal part Vasideh
				10	Private	Agriculture	0.0025	Rikhi Ram, Karnail Singh, Dharm Singh, Randheer Singh, S/O Surja Ram son of Sadhu ram each 4 equal part Vasideh
				1	Private	Agriculture	0.0349	Rikhi Ram, Karnail Singh, Dharm Singh, Randheer Singh, S/O Surja Ram son of Sadhu ram each 4 equal part Vasideh
			29	5	Private	Agriculture	0.0989	Rikhi Ram, Karnail Singh, Dharm Singh, Randheer Singh, S/O Surja Ram son of Sadhu ram each 4 equal part Vasideh
				4	Private	Agriculture	0.0025	Rikhi Ram, Karnail Singh, Dharm Singh, Randheer Singh, S/O Surja Ram son of Sadhu ram each 4 equal part Vasideh
			20	24	Private	Agriculture	0.0270	Rikhi Ram, Karnail Singh, Dharm Singh, Randheer Singh, S/O Surja Ram son of Sadhu ram each 4 equal part Vasideh
				16	Private	Agriculture	0.0090	Pala ram s/o Telu ram Vasideh
		(7) Galuli	34	24	Private	Agriculture	0.0697	Basanti widow Asa Ram S/o Prabhu Dayal Vasideh
				23	Private	Agriculture	0.0978	Basanti widow Asa Ram S/o Prabhu Dayal Vasideh
			33	15	Private	Agriculture	0.0506	Basanti widow Asa Ram S/o Prabhu Dayal Vasideh
				14	Private	Agriculture	0.1301	Basanti widow Asa Ram S/o Prabhu Dayal Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Mastee/ Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				13	Private	Agriculture	0.0025	Basanti widow Asa Ram S/o Prabhu Dayal Vasideh
			34	22	Private	Agriculture	0.0025	Rikhi Ram, Karnail Singh, Dharm Singh, Randheer Singh, S/O Surja Ram each 4 equal part Vasideh
				19	Private	Agriculture	0.0675	Rikhi Ram, Karnail Singh, Dharm Singh, Randheer Singh, S/O Surja Ram each 4 equal part Vasideh
				20	Private	Agriculture	0.0734	Ram singh, Maan singh, Harpal singh, Rishipal singh, Sanjiv kumar S/o Bala devi, Sonidevi d/o Genda ram S/o Jethu each 7 equal part vasideh
			33	16	Private	Agriculture	0.0045	Ram singh, Maan singh, Harpal singh, Rishipal singh, Sanjiv kumar S/o Bala devi, Sonidevi d/o Genda ram S/o Jethu each 7 equal part vasideh
				7/2	Private	Agriculture	0.0084	Amarnath, Amar Singh S/o Deshraj S/o Telu each 2 equal part Vasideh
				128	Government	Non Agriculture	0.3193	Central Government
				8/2	Private	Agriculture	0.1181	Bhajan Singh S/o Baru Ram S/o Loti Ram Vasideh
				9	Private	Agriculture	0.1433	Bhajan Singh S/o Baru Ram S/o Loti Ram Vasideh
				10	Private	Agriculture	0.0197	Bhajan Singh S/o Baru Ram S/o Loti Ram Vasideh
			32	5	Private	Agriculture	0.1467	Bhajan Singh S/o Baru Ram S/o Loti Ram Vasideh
			33	1/2	Private	Agriculture	0.0944	Laxmi Tanj, Pala Ram, Shiv Charan, Shiv Kumar, Shamlal Naresh Kumar S/O Ram Sarup S/O Asa each 6 equal part Vasideh & Bhajan Singh S/o Baru Ram S/o Loti Ram Vasideh
			32	4/1	Private	Agriculture	0.0641	Laxmi Chand, Ram Pal, Shiv Charan, Shiv Kumar, Shyam Kumar, Naresh Kumar S/O Ram Sarup S/O Asa Ram each 6 equal part Vasideh
			25	23	Private	Agriculture	0.1467	Laxmi Chand, Ram Pal, Shiv Charan, Shiv Kumar, Shyam Kumar, Naresh Kumar S/O Ram Sarup S/O Asa Ram each 6 equal part Vasideh
				22	Private	Agriculture	0.0675	Laxmi Chand, Ram Pal, Shiv Charan, Shiv Kumar, Shyam Kumar, Naresh Kumar S/O Ram Sarup S/O Asa Ram each 6 equal part Vasideh
				19/3	Private	Agriculture	0.0646	Laxmi Chand, Ram Pal, Shiv Charan, Shiv Kumar, Shyam Kumar, Naresh Kumar S/O Ram Sarup S/O Asa Ram each 6 equal part Vasideh
			26	13	Private	Agriculture	0.0100	Laxmi Chand, Ram Pal, Shiv Charan, Shiv Kumar, Shyam Kumar, Naresh Kumar S/O Ram Sarup S/O Asa Ram each 6 equal part Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				14/2	Private	Agriculture	0.0100	Laxmi Chand, Ram Pal, Shiv Charan, Shiv Kumar, Shyam Kumar, Naresh Kumar S/O Ram Sarup S/O Asa Ram each 6 equal part Vasideh
			27	6	Private	Agriculture	0.0100	Laxmi Chand, Ram Pal, Shiv Charan, Shiv Kumar, Shyam Kumar, Naresh Kumar S/O Ram Sarup S/O Asa Ram each 6 equal part Vasideh
			25	24/1	Private	Agriculture	0.0894	Laxmi Chand, Ram Pal, Shiv Charan, Shiv Kumar, Shyam Kumar, Naresh Kumar S/O Ram Sarup S/O Asa Ram each 6 equal part Vasideh
				20	Private	Agriculture	0.0967	Om Chand, Tilak Ram S/o Veeru S/o Nandu each 2 equal part, 2/3 part, Gurdayal S/o Veeru S/o Nandu rahan hissa 1/3 part, Shanti Swaroop S/o Visna ram 1/3 part Vasideh Murtahan
			26	16/2	Private	Agriculture	0.0956	Om Chand, Tilak Ram S/o Veeru S/o Nandu each 2 equal part, 2/3 part, Gurdayal S/o Veeru S/o Nandu rahan hissa 1/3 part, Shanti Swaroop S/o Visna ram 1/3 part Vasideh Murtahan
				16/1	Government	Non Agriculture	0.0025	Haryana State Government
				131	Government	Non Agriculture	0.0056	Haryana State Government
				9	Private	Agriculture	0.0100	Ram Swaroop S/o Asa Ram S/o Jagannath Vasideh
				12	Private	Agriculture	0.0050	Ram Swaroop S/o Asa Ram S/o Jagannath Vasideh
				10	Government	Non Agriculture	0.0100	Haryana State Government
			27	3	Government	Non Agriculture	0.0200	Panchayat deh
				4	Private	Agriculture	0.0300	Pawan Kumar, Ram Kumar, Raj Kumar, Mulak Raj, Tilak Raj S/o Tara Chand each 5 equal part 1/2 part, Mamchand S/o Karesani 1/2 part Vasideh
				5	Private	Agriculture	0.0200	Maidhan S/o Jagir Singh S/o Madu 99/1292 part Shivcharan S/o Jagir Singh S/o Madu Ram 56/323 part, Naseeb Singh Nayab Singh S/o Jasmer Singh S/o Madu Ram each 2 equal part 1/4 part, Baljeet Kaur W/o Shamsher Singh S/o Katthu Ram 1/2 part Vasideh & Lukshmi Chand Pala Ram, Shiv Kumar Shiv Charan, Shyam Naresh Kumar S/o Ramswaroop S/o Asa Ram each 6 equal part Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Mustafabad	(1) Hasanpur	13	16	Private	Agriculture	0.0742	Baljeet Singh S/o Teja Singh S/o Harnam Singh 1375/10123 part, Dilbag Singh S/o Sadhu Singh, S/o Bakhtawar Singh 1192/10123 part, Banta Singh S/o Mahindra Singh S/o Kamal Singh 313/10123 part, Vasta Singh S/o Varyam Singh S/o Deva Singh 1081/10123 part, Jarnail Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh 683/10123 part Sohan Singh, Bhadur Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh each 2 equal part 684/10123 part Harmindra Singh, Nahar Singh S/o Sharavan Singh S/o Khem Singh each 2 equal part 832/10123 part, Mohd Hanif S/o Sarf Ali S/o Mauju 1585/20246 part, Hasina Begum W/o Mohd Hanif 1585/20246 part Mansub Ali S/o Rahimu S/o Rasula 472/10123 part, Mangat Ram S/o Panjaba 951/10123 part, Naresh Kumar S/o Chhota Ram S/o Panjaba 475/10123 part, Randeep Singh S/o Ishar Singh S/o Chhota Ram 475/10123 part, Shanti Swaroop S/o Fakir Chand S/o Chhotan Lal 3/10123 part, Sohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 2/10123 part Vasideh
				17	Private	Agriculture	0.0809	Baljeet Singh S/o Teja Singh S/o Harnam Singh 1375/10123 part, Dilbag Singh S/o Sadhu Singh, S/o Bakhtawar Singh 1192/10123 part, Banta Singh S/o Mahindra Singh S/o Kamal Singh 313/10123 part, Vasta Singh S/o Varyam Singh S/o Deva Singh 1081/10123 part, Jarnail Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh 683/10123 part Sohan Singh, Bhadur Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh each 2 equal part 684/10123 part Harmindra Singh, Nahar Singh S/o Sharavan Singh S/o Khem Singh each 2 equal part 832/10123 part, Mohd Hanif S/o Sarf Ali S/o Mauju 1585/20246 part, Hasina Begum W/o Mohd Hanif 1585/20246 part Mansub Ali S/o Rahimu S/o Rasula 472/10123 part, Mangat Ram S/o Panjaba 951/10123 part, Naresh Kumar S/o Chhota Ram S/o Panjaba 475/10123 part, Randeep Singh S/o Ishar Singh S/o Chhota Ram 475/10123 part, Shanti Swaroop S/o Fakir Chand S/o Chhotan Lal 3/10123 part, Sohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 2/10123 part Vasideh

4551 GI/10-6

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				18/1	Private	Agriculture	0.0669	Baljeet Singh S/o Teja Singh S/o Harnam Singh 1375/10123 part, Dilbag Singh S/o Sadhu Singh, S/o Bakhtawar Singh 1192/10123 part, Banta Singh S/o Mahindra Singh S/o Kamal Singh 313/10123 part, Vasta Singh S/o Varyam Singh S/o Deva Singh 1081/10123 part, Jarnail Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh 683/10123 part Sohan Singh, Bhadur Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh each 2 equal part 684/10123 part Harmindra Singh, Nahar Singh S/o Sharavan Singh S/o Khem Singh each 2 equal part 832/10123 part, Mohd Hanif S/o Sarf Ali S/o Mauju 1585/20246 part, Hasina Begum W/o Mohd Hanif 1585/20246 part Mansub Ali S/o Rahimu S/o Rasula 472/10123 part, Mangat Ram S/o Panjaba 951/10123 part, Naresh Kumar S/o Chhota Ram S/o Panjaba 475/10123 part, Randeep Singh S/o Ishar Singh S/o Chhota Ram 475/10123 part, Shanti Swaroop S/o Fakir Chand S/o Chhotan Lal 3/10123 part, Sohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 2/10123 part Vasideh
				13	Private	Agriculture	0.0956	Baljeet Singh S/o Teja Singh S/o Harnam Singh 1375/10123 part, Dilbag Singh S/o Sadhu Singh, S/o Bakhtawar Singh 1192/10123 part, Banta Singh S/o Mahindra Singh S/o Kamal Singh 313/10123 part, Vasta Singh S/o Varyam Singh S/o Deva Singh 1081/10123 part, Jarnail Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh 683/10123 part Sohan Singh, Bhadur Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh each 2 equal part 684/10123 part Harmindra Singh, Nahar Singh S/o Sharavan Singh S/o Khem Singh each 2 equal part 832/10123 part, Mohd Hanif S/o Sarf Ali S/o Mauju 1585/20246 part, Hasina Begum W/o Mohd Hanif 1585/20246 part Mansub Ali S/o Rahimu S/o Rasula 472/10123 part, Mangat Ram S/o Panjaba 951/10123 part, Naresh Kumar S/o Chhota Ram S/o Panjaba 475/10123 part, Randeep Singh S/o Ishar Singh S/o Chhota Ram 475/10123 part, Shanti Swaroop S/o Fakir Chand S/o Chhotan Lal 3/10123 part, Sohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 2/10123 part Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12	Private	Agriculture	0.0989	Baljeet Singh S/o Teja Singh S/o Harnam Singh 1375/10123 part, Dilbag Singh S/o Sadhu Singh, S/o Bakhtawar Singh 1192/10123 part, Banta Singh S/o Mahindra Singh S/o Kamal Singh 313/10123 part, Vasta Singh S/o Varyam Singh S/o Deva Singh 1081/10123 part, Jarnail Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh 683/10123 part Sohan Singh, Bhadur Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh each 2 equal part 684/10123 part Harmindra Singh, Nahar Singh S/o Sharavan Singh S/o Khem Singh each 2 equal part 832/10123 part, Mohd Hanif S/o Sarf Ali S/o Mauju 1585/20246 part, Hasina Begum W/o Mohd Hanif 1585/20246 part Mansub Ali S/o Rahimu S/o Rasula 472/10123 part, Mangat Ram S/o Panjaba 951/10123 part, Naresh Kumar S/o Chhota Ram S/o Panjaba 475/10123 part, Randeep Singh S/o Ishar Singh S/o Chhota Ram 475/10123 part, Shanti Swaroop S/o Fakir Chand S/o Chhotan Lal 3/10123 part, Sohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 2/10123 part Vasideh
				11	Private	Agriculture	0.0025	Baljeet Singh S/o Teja Singh S/o Harnam Singh 1375/10123 part, Dilbag Singh S/o Sadhu Singh, S/o Bakhtawar Singh 1192/10123 part, Banta Singh S/o Mahindra Singh S/o Kamal Singh 313/10123 part, Vasta Singh S/o Varyam Singh S/o Deva Singh 1081/10123 part, Jarnail Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh 683/10123 part Sohan Singh, Bhadur Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh each 2 equal part 684/10123 part Harmindra Singh, Nahar Singh S/o Sharavan Singh S/o Khem Singh each 2 equal part 832/10123 part, Mohd Hanif S/o Sarf Ali S/o Mauju 1585/20246 part, Hasina Begum W/o Mohd Hanif 1585/20246 part Mansub Ali S/o Rahimu S/o Rasula 472/10123 part, Mangat Ram S/o Panjaba 951/10123 part, Naresh Kumar S/o Chhota Ram S/o Panjaba 475/10123 part, Randeep Singh S/o Ishar Singh S/o Chhota Ram 475/10123 part, Shanti Swaroop S/o Fakir Chand S/o Chhotan Lal 3/10123 part, Sohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 2/10123 part Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10	Private	Agriculture	0.1012	Baljeet Singh S/o Teja Singh S/o Harnam Singh 1375/10123 part, Dilbag Singh S/o Sadhu Singh, S/o Bakhtawar Singh 1192/10123 part, Banta Singh S/o Mahindra Singh S/o Kamal Singh 313/10123 part, Vasta Singh S/o Varyam Singh S/o Deva Singh 1081/10123 part, Jarnail Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh 683/10123 part Sohan Singh, Bhadur Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh each 2 equal part 684/10123 part Harmindra Singh, Nahar Singh S/o Sharavan Singh S/o Khem Singh each 2 equal part 832/10123 part, Mohd Hanif S/o Sarf Ali S/o Mauju 1585/20246 part, Hasina Begum W/o Mohd Hanif 1585/20246 part Mansub Ali S/o Rahimu S/o Rasula 472/10123 part, Mangat Ram S/o Panjaba 951/10123 part, Naresh Kumar S/o Chhota Ram S/o Panjaba 475/10123 part, Randeep Singh S/o Ishar Singh S/o Chhota Ram 475/10123 part, Shanti Swaroop S/o Fakir Chand S/o Chhotan Lal 3/10123 part, Sohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 2/10123 part Vasideh
			14	6/1	Private	Agriculture	0.0989	Baljeet Singh S/o Teja Singh S/o Harnam Singh 1375/10123 part, Dilbag Singh S/o Sadhu Singh, S/o Bakhtawar Singh 1192/10123 part, Banta Singh S/o Mahindra Singh S/o Kamal Singh 313/10123 part, Vasta Singh S/o Varyam Singh S/o Deva Singh 1081/10123 part, Jarnail Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh 683/10123 part Sohan Singh, Bhadur Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh each 2 equal part 684/10123 part Harmindra Singh, Nahar Singh S/o Sharavan Singh S/o Khem Singh each 2 equal part 832/10123 part, Mohd Hanif S/o Sarf Ali S/o Mauju 1585/20246 part, Hasina Begum W/o Mohd Hanif 1585/20246 part Mansub Ali S/o Rahimu S/o Rasula 472/10123 part, Mangat Ram S/o Panjaba 951/10123 part, Naresh Kumar S/o Chhota Ram S/o Panjaba 475/10123 part, Randeep Singh S/o Ishar Singh S/o Chhota Ram 475/10123 part, Shanti Swaroop S/o Fakir Chand S/o Chhotan Lal 3/10123 part, Sohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 2/10123 part Vasideh



Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7	Private	Agriculture	0.0025	Baljeet Singh S/o Teja Singh S/o Harnam Singh 1375/10123 part, Diubag Singh S/o Saihu Singh, S/o Bakhtawar Singh 1192/10123 part, Banta Singh S/o Mahindra Singh S/o Kamal Singh 313/10123 part, Vasta Singh S/o Varyam Singh S/o Deva Singh 1081/10123 part, Jarnail Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh 683/10123 part Sohan Singh, Bhadur Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh each 2 equal part 684/10123 part Harmindra Singh, Nahar Singh S/o Sharavan Singh S/o Khem Singh each 2 equal part 832/10123 part, Mohd Hanif S/o Sarf Ali S/o Mauju 1585/20246 part, Hasina Begum W/o Mohd Hanif 1585/20246 part Mansub Ali S/o Rahimu S/o Rasula 472/10123 part, Mangat Ram S/o Panjaba 951/10123 part, Naresh Kumar S/o Chhota Ram S/o Panjaba 475/10123 part, Randeep Singh S/o Ishar Singh S/o Chhota Ram 475/10123 part, Shanti Swaroop S/o Fakir Chand S/o Chhotan Lal 3/10123 part, Sohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 2/10123 part Vasideh
				4	Private	Agriculture	0.0944	Baljeet Singh S/o Teja Singh S/o Harnam Singh 1375/10123 part, Dilbag Singh S/o Sadhu Singh, S/o Bakhtawar Singh 1192/10123 part, Banta Singh S/o Mahindra Singh S/o Kamal Singh 313/10123 part, Vasta Singh S/o Varyam Singh S/o Deva Singh 1081/10123 part, Jarnail Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh 683/10123 part Sohan Singh, Bhadur Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh each 2 equal part 684/10123 part Harmindra Singh, Nahar Singh S/o Sharavan Singh S/o Khem Singh each 2 equal part 832/10123 part, Mohd Hanif S/o Sarf Ali S/o Mauju 1585/20246 part, Hasina Begum W/o Mohd Hanif 1585/20246 part Mansub Ali S/o Rahimu S/o Rasula 472/10123 part, Mangat Ram S/o Panjaba 951/10123 part, Naresh Kumar S/o Chhota Ram S/o Panjaba 475/10123 part, Randeep Singh S/o Ishar Singh S/o Chhota Ram 475/10123 part, Shanti Swaroop S/o Fakir Chand S/o Chhotan Lal 3/10123 part, Sohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 2/10123 part Vasideh

4551 GI/10-7

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3	Private	Agriculture	0.0349	Baljeet Singh S/o Teja Singh S/o Harnam Singh 1375/10123 part, Dilbag Singh S/o Sadhu Singh, S/o Bakhtawar Singh 1192/10123 part, Banta Singh S/o Mahindra Singh S/o Kamal Singh 313/10123 part, Vasta Singh S/o Varyam Singh S/o Deva Singh 1081/10123 part, Jarnail Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh 683/10123 part Sohan Singh, Bhadur Singh S/o Dayal Singh S/o Bakhtawar Singh each 2 equal part 684/10123 part Harmindra Singh, Nahar Singh S/o Sharavan Singh S/o Khem Singh each 2 equal part 832/10123 part, Mohd Hanif S/o Sarf Ali S/o Mauju 1585/20246 part, Hasina Begum W/o Mohd Hanif 1585/20246 part Mansub Ali S/o Rahimu S/o Rasula 472/10123 part, Mangat Ram S/o Panjaba 951/10123 part, Naresh Kumar S/o Chhota Ram S/o Panjaba 475/10123 part, Randeep Singh S/o Ishar Singh S/o Chhota Ram 475/10123 part, Shanti Swaroop S/o Fakir Chand S/o Chhotan Lal 3/10123 part, Sohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 2/10123 part Vasideh
				32	Private	Agriculture	0.0050	Kanwar Lal, Amol Singh S/o Laxman each 2 equal part, 829/1050 part, Nayamat Ali S/o Rahmatullah 101/1050 part, Nasiruddin S/o Abdul 13/420 part, Munsi Khan, Nayamat Ali S/o Rahamatullah each 2 equal part 17/350 part, Saraf Ali S/o Mauju 17/2100 part, Sahabuddin S/o Mauju 17/2100 part, Mansab Ali S/o Rahimu 11/2100 part, Rashid S/o Ismail 13/2100 part, Central Govt Acquired Property 1/140 Part Vasideh
				40	Private	Agriculture	0.0050	Kanwar Lal, Amol Singh S/o Laxman each 2 equal part, 829/1050 part, Nayamat Ali S/o Rahmatullah 101/1050 part, Nasiruddin S/o Abdul 13/420 part, Munsi Khan, Nayamat Ali S/o Rahamatullah each 2 equal part 17/350 part, Saraf Ali S/o Mauju 17/2100 part, Sahabuddin S/o Mauju 17/2100 part, Mansab Ali S/o Rahimu 11/2100 part, Rashid S/o Ismail 13/2100 part, Central Govt Acquired Property 1/140 Part Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land,	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				41	Private	Agriculture	0.0050	Kanwar Lal, Amol Singh S/o Laxman each 2 equal part, 829/1050 part, Nayamat Ali S/o Rahmatullah 101/1050 part, Nasiruddin S/o Abdul 13/420 part, Munsu Khan, Nayamat Ali S/o Rahamatullah each 2 equal part 17/350 part, Saraf Ali S/o Mauju 17/2100 part, Sahabuddin S/o Mauju 17/2100 part, Mansab Ali S/o Rahimu 11/2100 part, Rashid S/o Ismail 13/2100 part, Central Govt Acquired Property 1/140 Part Vasideh
				46	Private	Agriculture	0.0050	Kanwar Lal, Amol Singh S/o Laxman each 2 equal part, 829/1050 part, Nayamat Ali S/o Rahmatullah 101/1050 part, Nasiruddin S/o Abdul 13/420 part, Munsu Khan, Nayamat Ali S/o Rahamatullah each 2 equal part 17/350 part, Saraf Ali S/o Mauju 17/2100 part, Sahabuddin S/o Mauju 17/2100 part, Mansab Ali S/o Rahimu 11/2100 part, Rashid S/o Ismail 13/2100 part, Central Govt Acquired Property 1/140 Part Vasideh
				49	Private	Agriculture	0.0025	Kanwar Lal, Amol Singh S/o Laxman each 2 equal part, 829/1050 part, Nayamat Ali S/o Rahmatullah 101/1050 part, Nasiruddin S/o Abdul 13/420 part, Munsu Khan, Nayamat Ali S/o Rahamatullah each 2 equal part 17/350 part, Saraf Ali S/o Mauju 17/2100 part, Sahabuddin S/o Mauju 17/2100 part, Mansab Ali S/o Rahimu 11/2100 part, Rashid S/o Ismail 13/2100 part, Central Govt Acquired Property 1/140 Part Vasideh
				38	Private	Agriculture	0.2100	Mukhtyar Kaur W/o Khem Singh S/o Sunder Singh 1/2 part Panjab Kaur widow & Jaswant Singh S/o & Harkesh Kaur Beant Kaur Satpal Kaur D/o Dayal Singh S/o Gurmukh Singh each 5 equal part 1/2 part Vasideh
				39	Private	Agriculture	0.0050	Kanwar Lal, Amol Singh S/o Laxman singh S/o Gajendra singh each 2 equal part Vasi Budia
				43	Private	Agriculture	0.0050	Tugal S/o Jethu S/o Veeru Vasideh
				44	Private	Agriculture	0.0050	Indraj, Jiya, Natha S/o & Pratapi, Taro D/o & Mado widow Kundan S/o Jethu each 6 equal part Vasideh
				45	Private	Agriculture	0.0050	Genda S/o Vaisakhi S/o Veeru Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				47	Private	Agriculture	0.0050	Kishna Ram S/o Rulia Ram S/o Sangaru 1/3 part Raja Ram alias Mamraj S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 1/3 part, Seo Ram, Gulal Chand, Sohan Lal, Mohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram each 4 equal part 4/15 part, Sanjeev Kumar S/o Banarsi Das S/o Kuda Ram 1/15 part Vasideh.
				48	Private	Agriculture	0.0025	Kishna Ram S/o Rulia Ram S/o Sangaru 1/3 part Raja Ram alias Mamraj S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram 1/3 part, Seo Ram, Gulal Chand, Sohan Lal, Mohan Lal S/o Kuda Ram S/o Rulia Ram each 4 equal part 4/15 part, Sanjeev Kumar S/o Banarsi Das S/o Kuda Ram 1/15 part Vasideh
		(2) Darajpur	18	29	Private	Agriculture	0.0242	Kanwar Lal, Amol Singh S/o Luxman singh S/o Gajendra singh each 3 equal part 123/175 bagh, Roop chand S/o Bakhtavr singh S/o Khushiya 52/175 bhag Vasideh
			17	30	Private	Agriculture	0.6746	Kanwar Lal, Amol Singh S/o Luxman singh S/o Gajendra singh each 3 equal part 123/175 bagh, Roop chand S/o Bakhtavr singh S/o Khushiya 52/175 bhag Vasideh
		(3) Kalapur	24	2/1	Government	Non Agriculture	0.0675	Pradesh Govrnment
				1/1	Government	Non Agriculture	0.0101	Pradesh Govrnment
				98	Government	Non Agriculture	0.0124	Pradesh Govrnment
				90	Private	Non Agriculture	0.0135	Faggu S/o Kishna S/o Chhotu Vasideh
			18	24	Private	Agriculture	0.0632	Rampal, Rishipal, Aman Kumar, S/o Rulia Ram S/o Rajaram each 3 equal part Vasideh vasi syalba
				23	Private	Agriculture	0.0247	Sher Singh, Jagdeesh chandra, Ompal Singh, Ombeer Singh, Rajbeer Singh S/o Baburam S/o Rasala each 5 equal part Vasi Sylba
				19	Private	Agriculture	0.0548	Sher Singh, Jagdeesh chandra, Ompal Singh, Ombeer Singh, Rajbeer Singh S/o Baburam S/o Rasala each 5 equal part Vasi Sylba
		(4) Syaliba	30	19	Private	Agriculture	0.0253	Rampal, Rishipal, Aman Kumar, S/o Rulia Ram S/o Rajaram each 3 equal part Vasideh vasi syalba
			30	20	Private	Agriculture	0.0489	Rampal, Rishipal, Aman Kumar, S/o Rulia Ram S/o Rajaram each 3 equal part Vasideh vasi syalba
			31	15	Private	Agriculture	0.0495	Rampal, Rishipal, Aman Kumar, S/o Rulia Ram S/o Rajaram each 3 equal part Vasideh vasi syalba
				14	Private	Agriculture	0.0489	Rampal, Rishipal, Aman Kumar, S/o Rulia Ram S/o Rajaram each 3 equal part Vasideh vasi syalba

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				13	Private	Agriculture	0.0025	Jaypal S/o Rajaram S/o Harnam Vasideh
				8	Private	Agriculture	0.0495	Jaypal S/o Rajaram S/o Harnam Vasideh
				9	Private	Agriculture	0.0489	Jaypal S/o Rajaram S/o Harnam Vasideh
				10	Private	Agriculture	0.0725	Yashpal, Kanvarpal, Ramkumar S/o Nanak S/o Rajaram S/o Nank S/o Rajaram share 1/4 part, Madhu Tyagi W/o Rajkumar S/o Ishwar Dutt 1/8 part, Kusum Tyagi W/o Narendra S/o Ishwar Dutt 1/8 Part Vasideh Multahan
			26	23	Private	Agriculture	0.0031	Yashpal, Kanvarpal, Ramkumar S/o Nanak S/o Rajaram S/o Nank S/o Rajaram share 1/4 part, Madhu Tyagi W/o Rajkumar S/o Ishwar Dutt 1/8 part, Kusum Tyagi W/o Narendra S/o Ishwar Dutt 1/8 Part Vasideh Multahan
			32	5	Private	Agriculture	0.0214	Harpal, Yashpal, Kanwarpal, Ramkumar S/o Nanak S/o Rajaram each 4 equal part Vasideh
				4/3	Private	Agriculture	0.0039	Harichand, Madanlal S/o Goverdhan das each 2 equal part 1/6 part, Smt Rani Devi D/o Goverdhan Das 1/12 part, Dhandevi widow & Gautam S/o & Smt Trawati D/o Chandra Shekhar each 3 equal part 1/12 part, Hurdut S/o Sardharam S/o Heera 1/3 part Vasideh, Harikishan S/o Devidayal S/o Sardharam 1/3 part vasi Sran
				73	Government	Non Agriculture	0.0652	Panchayat deh
				63	Government	Non Agriculture	0.0025	Panchayat deh
			25	12	Government	Non Agriculture	0.0050	Panchayat deh
				62	Government	Non Agriculture	0.0025	Panchayat deh
				63	Government	Non Agriculture	0.2100	Panchayat deh
				99	Government	Non Agriculture	0.0100	Panchayat deh
				103	Government	Non Agriculture	0.0150	Panchayat deh
				113	Government	Non Agriculture	0.0100	Panchayat deh
				96	Private	Non Agriculture	0.0050	Pramal Singh S/o Munshi S/o Harbansh Vasideh
				97	Private	Agriculture	0.0050	Janesh Kumar S/o Kartara S/o Shadi 1/2 part, Dhom Singh S/o Kartara S/o Shadi Share 160/2420 part bila rahan share 1050/2420 part, Jagdishchand S/o Baburam S/o Rasal Singh 8/121 part Vasideh Multahan

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100	Private	Agriculture	0.0125	Chhaju Singh S/o Rajaram S/o Dutt Singh 1/2 part Smt Vidyavati widow Telu Singh S/o Rajaram 1/50 part, Kiran pal, Ramkumar, Kulbeer singh, Krishan Singh S/o Telu Singh S/o Rajaram each 4 equal part 12/25 part Vasideh
				101	Private	Agriculture	0.0100	Chhaju Singh S/o Rajaram S/o Dutt Singh 1/2 part Smt Vidyavati widow Telu Singh S/o Rajaram 1/50 part, Kiran pal, Ramkumar, Kulbeer singh, Krishan Singh S/o Telu Singh S/o Rajaram each 4 equal part 12/25 part Vasideh
				114	Private	Agriculture	0.0210	Nakli, Babu, Bachana, Nakada, Sohan S/o Chokha S/o Mohana each 5 equal part Vasideh
				115	Private	Agriculture	0.0025	Smt Kripa widow & Smt Natho Devi, Gendi, Bachani D/o & Bachana, Purn S/o Rama S/o Ghashi each 6 equal part 1/2 part, Kashmir Singh S/o Govind S/o Kdara 1/2 part Vasideh
		(5) Uncha Chandana	30	25	Private	Agriculture	0.0067	Baldev Singh, Sukhdev Singh, Vedpal Pal S/o Surjeet Singh S/o Sunder Singh each 3 equal part 1/2 part, Makand Singh S/o Sunder Singh 1/2 part Vasideh
				24	Private	Agriculture	0.0157	Baldev Singh, Sukhdev Singh, Vedpal Pal S/o Surjeet Singh S/o Sunder Singh each 3 equal part 1/2 part, Makand Singh S/o Sunder Singh 1/2 part Vasideh
				17/2	Government	Non Agriculture	0.0039	State Government Vasideh
				18	Government	Non Agriculture	0.0124	State Government Vasideh
				12/1	Government	Non Agriculture	0.0247	State Government Vasideh
				20/1	Government	Non Agriculture	0.0025	State Government Vasideh
				11	Government	Non Agriculture	0.0989	State Government Vasideh
			31	15/1	Government	Non Agriculture	0.0641	State Government Vasideh
				6/2	Government	Non Agriculture	0.0067	State Government Vasideh
			30	19/1	Private	Agriculture	0.0540	Kreshani Devi widow Sunder Singh S/o Jaswant Singh Vasideh
				19/2	Private	Agriculture	0.0025	Daljeet Kaur widow & Mandeep Kaur D/o & Surendra Singh, Baljindra Singh S/o Avatar Singh S/o Bhulla Singh each 4 equal part 1/3 part Suchha Singh, Surjeet Singh S/o Mula Singh each 2 equal part 2/3 part Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			31	14/1	Private	Agriculture	0.0025	Santram, Meharchand, Mamchand S/o Moluram S/o Atra Singh each 3 equal part Vasideh
				9	Private	Agriculture	0.0025	Santram, Meharchand, Mamchand S/o Moluram S/o Atra Singh each 3 equal part Vasideh
				7	Private	Agriculture	0.0472	Balbeer Singh, Harvindra Kumar S/o Santram S/o Moluram each 2 equal part 1/3 part, Meharchand, Mamchand S/o Moluram S/o Atra each 2 equal part 2/3 part Vasideh
				8	Private	Agriculture	0.0759	Balbeer Singh, Harvindra Kumar S/o Santram S/o Moluram each 2 equal part 1/3 part, Meharchand, Mamchand S/o Moluram S/o Atra each 2 equal part 2/3 part Vasideh
				2	Private	Agriculture	0.0438	Balbeer Singh, Harvindra Kumar S/o Santram S/o Moluram each 2 equal part rahan hissa 1/3 part, Meharchand, Mamchand S/o Moluram S/o Atra each 2 equal part rahan hissa 2/3 part, Jyoti ram S/o Amichand S/o Ramjilal Vasideh Murtahan
				1	Private	Agriculture	0.0495	Sanjeev Kumar S/o Sitaram S/o Ratanlal 85/1622 part, Dinesh Kumar S/o Sitaram S/o Ratanlal 519/1622 part, Ajay Kumar S/o Sitaram S/o Ratan Lal 509/811 part Vasideh
			32	5	Private	Agriculture	0.0084	Yogesh Kumar S/o Krishna Kumar S/o Bakhtawar Singh Vasideh
			25	25/1	Private	Agriculture	0.0607	Yogesh Kumar S/o Krishna Kumar S/o Bakhtawar Singh Vasideh
				24	Private	Agriculture	0.0495	Rajendra Singh S/o Sujan Singh S/o Gulab Singh Vasideh
				23	Private	Agriculture	0.0236	Balbeer Singh, Ramprasad, Roopchand, Gurnam singh, S/o Kartara S/o Rulia each 4 equal part Vasideh
				18/2	Private	Agriculture	0.0382	Balbeer Singh, Ramprasad, Roopchand, Gurnam singh, S/o Kartara S/o Rulia each 4 equal part Vasideh
				19	Private	Agriculture	0.0495	Balbeer Singh, Ramprasad, Roopchand, Gurnam singh, S/o Kartara S/o Rulia each 4 equal part Vasideh
				20	Private	Agriculture	0.0214	Fakirchand, Banarsidas, S/o Fagguram S/o Kishna each 2 equal part Vasideh
				11/2	Private	Agriculture	0.0351	Fakirchand, Banarsidas, S/o Fagguram S/o Kishna each 2 equal part Vasideh
			24	15	Private	Agriculture	0.0742	Fakirchand, Banarsidas, S/o Fagguram S/o Kishna each 2 equal part Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				14	Private	Agriculture	0.0408	Fakirchand, Banarsidas, S/o Fagguram S/o Kishna each 2 equal part Vasideh
				7/2	Private	Agriculture	0.0236	Fakirchand, Banarsidas, S/o Fagguram S/o Kishna each 2 equal part Vasideh
				8	Private	Agriculture	0.0472	Fakirchand, Banarsidas, S/o Fagguram S/o Kishna each 2 equal part Vasideh
				9	Private	Agriculture	0.0326	Vinod Sahani, Usha Sahani, Asha Sahani D/o Indra Sain S/o Hukum Chand each 3 sambhag Vasideh
		(6) Daulatpur	17	20	Government	Agriculture	0.0247	State Government
				21	Private	Agriculture	0.1394	Kripal Singh, Pradeep S/o & Mahendro wife Ram Kishan S/o Brihma Nand each 3 equal part 1/2 part, Ravishanker S/o & Kamlesh W/o Ramesherdas S/o Brahmanand each 2 equal part 1/2 part Vasideh
		(7) Kulpur	52	2	Private	Agriculture	0.0056	Rajkumar, Deepchand, Naveenkumar S/o Shiv Kumar S/o Sarjeet Singh each 3 equal part Vasideh
				1/2	Private	Agriculture	0.0051	Darshan Singh S/o Jetha Singh S/o Jwala Singh 3/10 part, Rajkumar, Deepchand, Naveen kumar S/o Shiv Kumar S/o Surjeet Singh each 3 equal part 7/10 part Vasideh
			48	21/2	Private	Agriculture	0.0180	Gurmeet Singh, Balvindra Singh, Karnail Singh, Parvindra Singh, Kashmir Singh S/o Naranjan Singh S/o Labh Singh each 5 equal part share 5/6 part, Darshan Kaur widow & Jurnail Singh, Jasbeer Singh S/o Ajit Singh S/o Naranjan Singh each 3 equal part share 1/6 part, Jagat Singh S/o Gurdiyal Singh S/o Moti Singh Vasideh Murtahan
			49	25	Private	Agriculture	0.0354	Gurmeet Singh, Balvindra Singh, Karnail Singh, Palvindra Singh, Kashmir Singh S/o Naranjan Singh S/o Labh Singh each 5 equal part rahan share 635/1602 part, Darshan Kaur widow & Jurnail Singh, Jasbeer Singh S/o Ajit Singh S/o Naranjan Singh each 3 equal part rahan share 127/1602 part Darshan Singh S/o Jetha Singh S/o Jwala Singh rahan Share 80/267 part, Rajkumar, Deep Chand, Naveen Kumar S/o Shiv Kumar S/o Surjeet Singh each 3 equal part rahan share 60/267 part, Jagat Singh S/o Gurudyal S/o Moti Singh Vasideh Murtahan
			49	85	Government	Non Agriculture	0.1105	Panchayat deh



Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				24	Private	Agriculture	0.0098	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja Singh 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 227/904 part, Sher Singh S/o Eshar Singh S/o Hukam Singh 51/904 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part, Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Barkat ram each 2 equal part 31/226 part, Sumitra Kaur widow & Daleep singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part, n Masalav S/o 25/452 part Vasideh
				18	Private	Agriculture	0.0742	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja Singh 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 227/904 part, Sher Singh S/o Eshar Singh S/o Hukam Singh 51/904 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part, Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Barkat ram each 2 equal part 31/226 part, Sumitra Kaur widow & Daleep singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part, n Masalav S/o 25/452 part Vasideh
				19	Private	Agriculture	0.0413	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja Singh 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 227/904 part, Sher Singh S/o Eshar Singh S/o Hukam Singh 51/904 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part, Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Barkat ram each 2 equal part 31/226 part, Sumitra Kaur widow & Daleep singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part, n Masalav S/o 25/452 part Vasideh
			50	15	Private	Agriculture	0.0450	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja Singh 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 227/904 part, Sher Singh S/o Eshar Singh S/o Hukam Singh 51/904 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part, Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Barkat ram each 2 equal part 31/226 part, Sumitra Kaur widow & Daleep singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part, n Masalav S/o 25/452 part Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6/2	Private	Agriculture	0.0453	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja Singh 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 227/904 part, Sher Singh S/o Eshar Singh S/o Hukam Singh 51/904 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part, Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Barkat ram each 2 equal part 31/226 part, Sumitra Kaur widow & Daleep singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part, n Masalav S/o 25/452 part Vasideh
				7	Private	Agriculture	0.0836	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja Singh 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 227/904 part, Sher Singh S/o Eshar Singh S/o Hukam Singh 51/904 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part, Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Barkat ram each 2 equal part 31/226 part, Sumitra Kaur widow & Daleep singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part, n Masalav S/o 25/452 part Vasideh
				8	Private	Agriculture	0.0630	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja Singh 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 227/904 part, Sher Singh S/o Eshar Singh S/o Hukam Singh 51/904 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part, Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Barkat ram each 2 equal part 31/226 part, Sumitra Kaur widow & Daleep singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part, n Masalav S/o 25/452 part Vasideh
				1	Private	Agriculture	0.0100	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja Singh 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 227/904 part, Sher Singh S/o Eshar Singh S/o Hukam Singh 51/904 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part, Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Barkat ram each 2 equal part 31/226 part, Sumitra Kaur widow & Daleep singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part, n Masalav S/o 25/452 part Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2	Private	Agriculture	0.0100	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja Singh 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 227/904 part, Sher Singh S/o Eshar Singh S/o Hukam Singh 51/904 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part, Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Barkat ram each 2 equal part 31/226 part, Sumitra Kaur widow & Daleep singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part, n Masalav S/o 25/452 part Vasideh
				3/1	Private	Agriculture	0.0100	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja Singh 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 227/904 part, Sher Singh S/o Eshar Singh S/o Hukam Singh 51/904 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part, Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Barkat ram each 2 equal part 31/226 part, Sumitra Kaur widow & Daleep singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part, n Masalav S/o 25/452 part Vasideh
			45	25	Private	Agriculture	0.0025	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja Singh 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part, 227/904 part, Sher Singh S/o Eshar Singh S/o Hukam Singh 51/904 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part, Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Barkat ram each 2 equal part 31/226 part, Sumitra Kaur widow & Daleep singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part, n Masalav S/o 25/452 part Vasideh
			49	17/2	Private	Agriculture	0.0540	Gurnam Singh, Varyam Singh S/o Deva Singh S/o Ram singh each 2 equal part Vasideh

Serial Number	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (Hect.)	Name of the Land Owner/ interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12/1	Private	Agriculture	0.0551	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja ram 1/4 part Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Varkat Ram each 2 equal part 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 1/4 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part Sumitra Kaur widow & Daleep Singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part Vasideh
				11	Private	Agriculture	0.0978	Sahail Singh S/o Nanak Singh S/o Raja ram 1/4 part Nanak chand, Jagdeesh Lal S/o Ramji Lal S/o Varkat Ram each 2 equal part 1/4 part, Rajindra Singh, Jagpreet Singh S/o & Surendra Kaur widow Buta Singh S/o Eshar Singh each 3 equal part 1/4 part, Surendra Kaur D/o Lakha Singh S/o Hari Singh 1/8 part Sumitra Kaur widow & Daleep Singh, Ranjeet Singh S/o Balwant Singh S/o Hari Singh each 3 equal part 1/8 part Vasideh

[F. No. 2010/LML/12/3-Eastern Corridor]

JAGDIP RAI, Executive Director (Land and Amenities-1)